

प्रथम संस्करण  
नवम्बर, १९५६

अनुवादक  
माईद्याल जैन

मूल्य  
दो रुपया

मुद्रक  
एलवियन प्रेस  
दिल्ली.

## निवेदन

‘यात्री’ खलील जिज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक ‘वाण्डरर’ का हिन्दी अनुवाद है। यह उनकी अंतिम छृति है और उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद, सन् १९३२ में प्रकाशित हुई थी।

इस पुस्तक का मुख्य नाथक नामहीन व्यक्ति है, जिसे ‘यात्री’ कहा गया है। उसके दियथ में हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं—

“मैं उसे चौराहे पर मिला। वह एक शपरिचित व्यक्ति था, जिसके हाथ में लाठी, शरीर पर एक चोदर और चेहरे पर एक श्रयाहू दर्द का अज्ञेय परदा था।

“हमारे इस मिलन में गरमी और प्रेम था। मैंने उससे कहा, ‘मेरे घर पधारिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए।’ और वह मेरे साथ हो लिया।

“इस रात और दूसरे दिन उसने हमें बहुत-सी कहानियाँ सुनाई। किन्तु यह जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, यह उसके कटु दिनों का अनुभव है। मेरी कहानियाँ, उसके मार्ग की धूलि और धीरज की कहानियाँ हैं।”

इस पुस्तक में दावन कहानियाँ हैं, जिनकी तुलना जिज्ञान की दूसरी दो पुस्तकों ‘पागल’ और ‘शगुआ’ की कहानियों से की जा सकती है। इन कहानियों में पूर्व के विचारों, पदों और मुहावरों का तानाचाना है। इनमें पश्चिम की कोई चर्चा नहीं है। इनमें ‘पागल’ की फहानियों का व्यंग्य है। जिज्ञान ने इन कहानियों में वारीक टोरियों के कोमल चावुक से संसार के बड़े से लेकर छोटे आदमियों तक की घबरती है और उनकी मूर्खताओं और अंधविद्वासों का परदा चाक किया

है। इस पुस्तक को शांति के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि वेचैनी और पापाचार के प्रति रवैये की पुष्टि के लिए पढ़ना चाहिए।

उदाहरण के लिए 'पूरे चांद' की कहानी पढ़िए। क्या इस कहानी में सभा-सोसाइटियों में शोर करनेवाली जनता से भी अधिक चिल्ला-चिल्लाकर चूप करनेवाले स्वयं-सेवकों और उपदेशपूर्ण भाषण से शोर-मचानेवाले नेताओं पर करारी चोट नहीं है ?

जिज्ञान जब धर्मज्ञायों, सत्ता के पुजारी अधिकारियों, प्रतिष्ठापिय जागीरदारों और राजनीतिक नेताओं की क्यनी और करनी में आकाश-पाताल का अन्तर देखता है, तो वह झुंझला उठता है। देखिए वह 'राजा' नामक कहानी में राजा के मुख से अत्याचारी जागीरदार को किस तरीके तरह झाड़ सुनवाता है—

"परमात्मा की न्याय-नुला में एक मनुष्य की जान दूसरे मनुष्य की जान के बराबर है। पर तुम इस सत्य को नहीं पहचानते कि जो लोग तुम्हारे खेतों और तुम्हारे वागों में दिन-रात कठोर परिश्रम करते हैं, उनकी जान का भी उतना ही महत्व है, जितना कि तुम्हारी जान का। इसलिए तुम्हें देश-निकाला दिया जाता है।"

वह अत्याचार करनेवाली एक वेगम को भी इसी प्रकार खरी-खरी सुनवाकर देश-निकाले का दंड दिलवाता है।

जिज्ञान इसी कहानी में एक पादरी को राजा से इन शब्दों में फटकार सुनवाता है—

"यह जो धर्म-चिह्न—क्रास—तुम गले में लटकाए फिरते हो, जानते हो, इसका सन्देश है?—जीवन को जीवन से भरना, परन्तु तुम जीवन को जीवन से बंचित करते हो। तुम इस पवित्र सन्देश का उपहास करते हो। तुम्हें इस देश से निकल जाने की आज्ञा दी जाती है।"

जिज्ञान आदमी को अंधानुकरण के हर बन्धन और गुलामी के हर झगड़े और कलंक से मुक्त देखना चाहता है।

इस 'यात्री' पुस्तक की समालोचना करते हुए, ब्लाड ग्रेगडन ने लिखा था, "उसकी (खलोल जिज्ञान की) शक्ति किसी महान आध्यात्मिक जीवन के बड़े भरने से आती है, वरना वह इतनी विश्वव्यापी और जोर-दार न होती। और जिस भाषा से उसने अपने विचारों को सजाया है, उसकी शान और सुन्दरता जिज्ञान की अपनी ही है।"

हम भारतवासियों के लिए कहानियों के हारा शिक्षा देने की पद्धति बहुत पुरानी है। पर जिज्ञान ने हमारे युग को नई-नई बुराइयों को अपनी कहानियों का लक्ष्य बनाया है, और एक नए ढंग से सांझाई को हमारे गले के नीचे उतारने का प्रयत्न किया है। आज भारत की स्थ-तन्त्रता के शैशवावस्था में देश में जिन कुरीतियों, दुराइयों, रंगों सियारवाले अवसरवादियों के कारनामों, सत्तालोलूपता, समाज के दोषों, लूट-खसोट और नैतिक पतन आदि को हम देखते हैं, उनको दूर करने के लिए जिज्ञान की शैली में कहानियां लिखी जाने की बड़ी आवश्यकता है। हृदय-परिवर्तन के लिए आज उपदेशों की नहीं, कड़े कानूनों की भी नहीं, घरन कोमल कोड़ों से उन आदमियों की अन्तरात्मा को हिलाने और झिझोड़ने की आवश्यकता है, जो अपनी करतूतों से देश के लिए खतरनाक प्रभारित हो रहे हैं। क्या हमारे लेखक और कवि जिज्ञान का अनुकरण करके अपने इस महान उत्तरदायित्व को पूरा न करेंगे?

दिल्ली

२ अगस्त, १९५६

माईदायाल जैन







Khalil Gibran

## खलील जिवान : परिचय

संसार के महाकवियों की नामावलि में महाकवि खलील जिज्ञान का नाम एक नई वृद्धि है। यद्यपि यह विश्वविद्यात् और अन्तर्राष्ट्रीय ल्याति के थे, तो भी चूंकि इन्होंने एशिया के लेवनान देश में शपना जन्म लेकर उसे परिव्रत्र किया था, इस नाते हम भारतवासी भी इनपर उचित गर्व कर सकते हैं। इनका जन्म ६ जनवरी, १८८३ ई० को लेवनान के बशरी नगर में एक सम्पन्न और नामी ईसाई घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम कन्नीमा रही थी।

बारह वर्ष की छोटी आयु में ही इन्हें शपने माता-पिता के साथ वेलियम, क्रान्स और संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों में भ्रमण करना पड़ा, जिससे इनका ज्ञान और अनुभव बहुत बढ़ गया। यह अरबी, अंगरेजी और फ्रांसीसी भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, और पहली दो भाषाओं पर तो इनको इतना अविकार प्राप्त था कि इनकी तमस्त रचनाएं इन्हीं भाषाओं में ही। यह प्रतिद्वंद्वी, दार्शनिक और चित्रकार थे। शपनी रचनाओं और उग्र आलोकनाओं के कारण इनको शपने देश के पादरियों, जागीरदारों और अधिकारी-दर्बार का क्षोपनाजन बनना पड़ा, जिन्होंने इनको न केवल जाति से ही बहिरचृत किया, बल्कि देश से भी निकाल दिया। इससे यह १८८२ ई० से संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क नगर में स्थायी रूप से रहने लगे।

खलील जिवान अद्भुत कल्यन-शक्ति रखते थे। यह भारत के विश्वविद्यात् महाकवि रवीन्द्रनाथ देबोर की तुलना के थे। इन्होंने बारह वर्ष की अल्प आयु में ही अरबी नें लिखना शारम्भ कर दिया था।

इन्होंने लगभग पचास पुस्तकों लिखीं, जो इनके अपने ही बनाए हुए चित्रों से सुसज्जित हैं। इनका संसार की वीस-व्हाइस प्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अतः उनके प्रशंसकों और पाठकों की संख्या का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यहां हिंदी, गुजराती, मराठी और उर्दू में उनकी बहुत-सी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। यह बात उल्लेखनीय है कि उर्दू तथा मराठी में खलील जिवान की रचनाओं के सबसे अधिक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। पर यह संतोष की बात है कि हिन्दी-जगत् में भी खलील जिवान बहुत प्रिय बन गए हैं। उनकी कई पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।)

(खलील जिवान एक महान् चित्रकार भी थे। और उनके चित्रों की संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैण्ड और फ्रांस में कई प्रदर्शनियाँ हुईं, जिनमें प्रदर्शित चित्रों की नामी चित्र-आलोचकों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी।)

(यह ईसाई धर्म के अनुयायी थे, पर पादरियों और श्रंघविश्वासियों के सदा कटूर विरोधी रहे। यह महान् देशभक्त थे। और अपने देशवासियों से इतने सताए जाने पर भी अपने देश के लिए सदा कुछ न कुछ लिखते रहे। अड़तालीस वर्ष की आयु में एक मोटर-दुर्घटना में यह सख्त धायल हो गए और १० अप्रैल, सन् १९३१ को न्यूयार्क में इनका देहान्त हो गया। दो दिन तक इनके शव के अंतिम दर्शनों के लिए सहस्रों आदमियों के झुंड के झुंड आते रहे। फिर इनका शव अपनी जन्मभूमि को श्रापस लाया गया और शान और राजसी सम्मान के साथ इनके अपने नगर के एक गिरजा घर में दफन किया गया।)

# 'यात्री' की कहानियाँ

१.	आवारा	...	...	१३
२.	वेश	...	...	१५
३.	उकाव और कौआ	...	...	१६
४.	प्रेम-नीति	...	...	१८
५.	मेले में	...	...	२०
६.	दो रानियाँ	...	...	२२
७.	साधु और जंगली पशु	...	...	२४
८.	पैगम्बर और बच्चा	...	...	२६
९.	आत्मा और शरीर	...	...	२८
१०.	राजा	...	...	२९
११.	तीन भेटे	...	...	३४
१२.	शांति और युद्ध	...	...	३६
१३.	नर्तकी	...	...	३७
१४.	दो संरक्षक देव	...	...	३८
१५.	मूर्ति	...	...	४१
१६.	पागल	...	...	४३
१७.	मैटक	...	...	४५
१८.	कानून और कानून वनानेवाले	...	...	४७
१९.	अभिसारिका	...	...	४८
२०.	दार्शनिक और मोची	...	...	५१
२१.	पुल वनानेवाले	...	...	५२
२२.	जाद की रणभूमि	...	...	५४
२३.	चुनहरा कमरदंद	...	...	५६
२४.	तन्त मिठु	...	...	५८

२५.	पुरानी शराब	...	...	५६
२६.	दो गीत	...	...	६१
२७.	श्रीमती रुही	...	...	६३
२८.	चूहा और विल्ली	...	...	६४
२९.	अभिशाप	...	...	६६
३०.	अनार	...	...	६७
३१.	परमात्मा और देवता	...	...	६८
३२.	वह, जो वहरी थी	...	...	७०
३३.	खोज	...	...	७३
३४.	राजदण्ड	...	...	७५
३५.	रास्ता	...	...	७६
३६.	हँसे और तितली	...	...	७८
३७.	स्थायी शान्ति	...	...	७९
३८.	सत्तर	...	...	८१
३९.	सत्य की खोज	...	...	८२
४०.	नदी	...	...	८३
४१.	हर्ष और शोक	...	...	८५
४२.	दूसरा आवारा	...	...	८७
४३.	रेत पर	...	...	८८
४४.	आंसू और हँसी	...	...	८९
४५.	विजली चमकती है	...	...	९०
४६.	आदला-वदली	...	...	९१
४७.	मोती	...	...	९२
४८.	पूरा चांद	...	...	९३
४९.	प्रेम और वृग्णा	...	...	९४
५०.	परछाइ	...	...	९५
५१.	सपना	...	...	९६
५२.	लाल धरती	...	...	९६

# आवारा

.....

मैं उसे चौराहे पर मिला । वह एक अपरिचित व्यक्ति था; जिसके हाथ में लाठी, शरीर पर एक चादर और चेहरे पर एक अथाह दर्द का अज्ञेय परदा था ।

हमारे इस मिलन में गरमी और प्रेम था । मैंने उससे कहा, “मेरे घर पधारिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए ।” और वह मेरे साथ हो लिया ।

मेरी पत्नी और बच्चे हमें द्वार पर हो मिल गए । वे सब उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके आने पर फूले न समाए ।

फिर हम सब एक साथ भोजन के लिए बैठे । हम बहुत प्रसन्न थे और वह भी खुश था, किन्तु मौन । उसका मौन रहस्यपूर्ण था ।

भोजन के बाद हम आग के पास आ बैठे । बाँर में उससे उसकी यात्राओं की बाबत पूछता रहा ।

इस रात और दूसरे दिन उसने हमें बहुत-सी कहानियां सुनाई । किन्तु यह जो कुछ मैं लिख रहा हूं, यह उसके कट्टे दिनों का अनुभव है । यद्यपि वह स्वयं अत्यन्त कृपालु तथा दयालु था, परन्तु ये कहानियां ! ये तो उसके मार्ग को धूलि और धीरज की कहानियां हैं ।

और तीन दिन पीछे जब वह हमसे विदा हुआ तो हमें  
यह अनुभव नहीं होता था कि हमने किसी अतिथि को विदा  
किया है, वरन् ऐसा मालूम होता था, जैसे हममें से ही कोई  
वाहर वाटिका में गया है और उसे अभी घर आना है।

एक दिन समुद्र के किनारे सौन्दर्य की देवी की भेट कुरुपता की देवी से हुई। एक ने दूसरी से कहा, “आओ, समुद्र में स्नान करें।”

फिर उन्होंने अपने-अपने वस्त्र उतार दिए और समुद्र में तैरने लगीं।

कुछ देर बाद कुरुपता की देवी समुद्र से बाहर निकली, तो वह चुपके-से सौन्दर्य की देवी के वस्त्र पहनकर खिसक गई।

और जब सौन्दर्य की देवी समुद्र से बाहर निकली, तो उसने देखा कि उसके वस्त्र वहां न थे। नंगा रहना उसे पसन्द न था। अब उसके लिए कुरुपता की देवी के वस्त्र पहनने के सिवा और कोई चारा न था। लाचार हो उसने वही वस्त्र पहन लिए और अपना रास्ता लिया।

आज तक सभी स्त्रो-पुरुष उन्हें पहचानने में घोखा खा जाते हैं।

किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य हैं, जिन्होंने सौन्दर्य की देवी को देखा हुआ है और उसके वस्त्र बदले होने पर भी उसे पहचान लेते हैं। और यह भी विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी जरूर होंगे जिन्होंने कुरुपता की देवी को भी देखा होगा और उसके वस्त्र उसे उनकी दृष्टियों से छिपा न सकते हों।

# उकाव और कौआ

पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर एक कौआ एक उकाव से मिला ।

कौए ने उसका अभिवादन किया ।

उकाव ने अभिमान से उसकी ओर देखा और धीरे से उसका अभिवादन किया ।

कौए ने पूछा, “आशा है, श्रीमान जी कुशल से होंगे ?”

“हूँ” उकाव बोला, “हम सकुशल हैं । परन्तु क्या तुम यह नहीं जानते कि हम सब पक्षियों के राजा हैं और राजा से सम्बोधन करने का साहस उस समय तक न करना चाहिए जब तक हम स्वयं ऐसा पसन्द न करें ?”

कौआ बोला, “मेरा तो विचार है कि हम सब एक कुटुम्ब से हैं ।”

उकाव ने उसकी तरफ बड़ी घृणा से देखा और कहा, “यह तुझे किसने बताया है कि हम और तुम एक ही कुटुम्ब से हैं ?”

कौआ बोला, “तो फिर शायद मुझे श्रीमान को यह जतलाना ही पड़ेगा कि मेरी उड़ान श्रीमान की उड़ान से ऊंची है और मेरी बोली आपकी बोली से सुरीली है और मैं गाकर दूसरे जीवों को आनंद देता हूँ और श्रीमान न किसीको

प्रसन्न कर सकते हैं और न आनन्द दे सकते हैं।”

इसपर उकाव को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, “प्रसन्नता और आनन्द के बच्चे ! ढीठ पक्षी । पंजा मारूं तो दम निकल जाए तेरा । मेरे पंजे के बराबर तो हो नहीं और यह हाथ भर की जिह्वा !”

इसपर कौआ उड़कर उकाव की पीठ पर आ बैठा और लगा उसके पर नोचने ।

उकाव झुंझलाकर ऊंचा-ऊंचा उड़ने लगा कि किसी प्रकार इस तुच्छ पक्षी से पीछा छूटे, किन्तु कौआ ऐसा जमकर बैठा कि अन्त में हारकर उसे नीचे ही उतरना पड़ा । उकाव पहले से भी अधिक क्रोध में भर गया; उस बुरे समय को कोसता हुआ, उस तुच्छ पक्षी को अपनी पीठ पर लिए वह उसी चट्टान पर आ गिरा ।

इसी समय जाने कहाँ से एक कछवी आ निकली और इस हँसानेवाले दृश्य को देखकर कुछ इस प्रकार से हँसी कि हँसते-हँसते लोटपोट हो गई ।

उकाव ने घमंड से उसको तरफ देखते हुए कहा, “ओ सदा से भूमि पर रँगनेवाले कीड़े ! भला तुम्हें किस बात पर हँसी आ रही है ?”

कछवी बोली, “तुम घोड़ा बन गए हो और एक नन्हासा पक्षी तुमपर सवारी कर रहा है । पर वह पक्षी है तुमसे बड़ा ही ।”

इसपर उकाव बोला, “अरी, तुम अपना रास्ता नापो । यह हमारी घरेलू बात है, मेरी ओर मेरे भाई कीए को ।”

## प्रेम-गीत

\*\*\*\*\*

एक बार एक कवि ने एक प्रेम-गीत लिखा । वड़ा ही मधुर गीत था वह ।

इसने उस गीत की वहुत-सी प्रतियां तैयार कराईं और उन्हें अपने मित्रों और परिचित स्त्रो-पुरुषों को भिजवाया । और उस नवयुवती कुमारी को भी, जिससे आज तक वह केवल एक ही बार मिला था और जो ऊचे पहाड़ों की उस ओर रहती थी ।

इसके कुछ दिन बाद उस कुमारी का दूत एक पत्र लेकर उस कवि के पास आया । पत्र में उसने लिखा था, “मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि प्रेम के इस गीत ने, जो तुमने लिखकर भेजा है, मुझे अत्यन्त प्रभावित कर दिया है; आप अब हमारे यहां पवारिए । एक बार मेरे माता-पिता से मिलिए और फिर हम निस्सन्देह अपनी सगाई की बातचीत पक्की कर लेने का कोई न कोई उपाय ढूँढ़ ही लेंगे ।”

कवि ने इस पत्र का उत्तर उसे यों दिया, “भाननीया कुमारी, यह तो केवल प्रेम का एक गीत था, जिसमें कवि के हृदय से निकले हुए उद्गार थे, वह गीत जो पुरुष स्त्री के लिए गाता है ।”

इसके उत्तर में उस कुमारी ने लिखा, “धूर्त! मायाचारी!  
आज से अपनी मृत्यु के दिन तक, जीवन पर्यन्त, केवल तुम्हारे  
कारण मैं किसी कवि को मुँह न लगाऊंगी। मैं कवियों से  
सदा ही धृणा करती रहूंगी।”

## मेले में

.....

किसी गांव से एक सुन्दर लड़की मेले में आई । कहते हैं, वड़ी ही रूपवती थी वह कुमारी ।

—उसके चेहरे पर गुलाब के फूलों की-सी प्रफूल्लता थी । बालों में डूबते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों की झिलमिलाहट और होठों पर उषा की मुस्कराहट ।

जैसे ही मेले में वह रूपवती अनजान कुमारी दिखाई दी, नवयुवकों के झुण्ड ने उसे अपने धेरे में ले लिया । एक उसके साथ नाच रहा था, तो दूसरा उसके सम्मान में मदिरा के प्याले उलट रहा था; और उसके गुलाबी कपोलों के चुम्बन की लालसा में तो सभी व्याकुल हो रहे थे ।

आखिर वे मेले ही में आए हुए थे न ?

परन्तु सुन्दर कुमारी चिन्तित थी; घबरा रही थी—नव-युवकों की भीड़ में उसका दम घुटा जा रहा था । उसे उनसे भय हो रहा था । वह उन्हें भला-वुरा कह रही थी । और एक को तो उसने एक थप्पड़ भी जड़ दिया । वह वहाँ से भागकर दूर चली गई ।

“तोवा है, नाक में दम कर दिया !” सन्ध्या समय गांव को लौटते हुए रास्ते में वह अपने आपसे कह रही थी, “कितने असभ्य तथा अशिष्ट हैं ये नौजवान ! असहनीय हैं वावा, ये

सब लोग !”

एक वर्ष बीत गया और वह रूपवती कुमारी वर्ष भर मेले और नवयुवकों की याद में खोई-सी रही। वर्ष भर पश्चात् वह फिर मुख पर गुलाब का-सा निखार, केशों में डूबते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों की झिलमिलाहट और अघरों पर उषा की मुस्कराहट लिए मेले में आई।

किन्तु अब जो नवयुवक भी उसे देखता, मुँह फेर लेता। सारा दिन बीत गया, न किसीने उसे बुलाया, न किसीने उससे बात की। वह अकेली मेले में फिरती रही।

और उस दिन सन्ध्या को गांव लौटते हुए वह अपने आपसे कह रही थी, “हाय, तोवा ! नाक में दम है। कितने अशिष्ट और दुरे हैं ये नवयुवक ! असहनीय हैं वावा, ये सब लोग !”

# दो रानियाँ

\*\*\*\*\*

शिवाकस नगर में एक राजा रहता था । सभी स्त्री-पुरुष और वच्चे उससे प्यार करते थे, यहां तक कि जंगली पशु भी उसको नमस्कार करने आते थे ।

किन्तु सर्वसाधारण का यह विचार था कि उसकी रानी को उससे विलक्षुल प्रेम नहीं, शायद वह उससे घृणा करती थी ।

एक दिन पड़ोस के किसी राज से एक रानी शिवाकस की रानी से मिलने आई । वे देर तक एक साथ बैठी बातें करती रहीं ।

बातों ही बातों में उनके पतियों—राजकुमारों की बात आ गई । शिवाकस की रानी भावुकता के आवेश में आकर दोली, “मुझे तो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर इष्ट्या होती है; तुमपर और तुम्हारे पति के सुख पर भी, यद्यपि तेरे विवाह को इतना समय बीत चुका है । और एक मैं हूँ । सच पूछो तो मुझे अपने पति से घृणा है । वह केवल मेरे थोड़े ही हैं ! मुझ जैसी दुर्भाग्यवती स्त्री शायद ही संसार में कोई हो !”

तब अतिथि रानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, “जो मुझसे सच पूछो तो केवल तुम ही अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो, क्यों कि अभी तुम्हारे हृदय में प्यास तथा कामनाएं हैं; वे कामनाएं जिनसे स्त्री का यौवन स्थिर

रहता है, ठीक वैसे जैसे फूलों से वाटिका को सुन्दरता । किन्तु मेरी और मेरे पति की दशा दयनीय है, क्योंकि हम सत्तोष तथा धन्यवादपूर्वक एक दूसरे को केवल निवाह रहे हैं । और हमारे इस 'जीवन' पर तुम्हें और दूसरे लोगों को गुमान है—इर्ष्या के योग्य सुख और आनन्द का !”

# साधु और जंगली पशु

आज से वहुत पहले; यहां से वहुत दूर, पहाड़ों में एक साधु का मठ था। उसकी आत्मा पवित्र और हृदय प्रकाश-पूर्ण था। पृथ्वी-आकाश के सब जानदार जोड़े उसके सामने आते और वह उनसे बातें करता। वे बड़े चाव तथा प्रेम से उसकी बातें सुनते और उनमें रस लेते, उसके गिर्द इकट्ठे रहते। सूरज छिपे वह साधु उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ जंगल में भेज देता।

एक संध्या को जब वह प्रेम के विषय में बातचीत कर रहा था, एक शेरनी ने अपना सिर उठाया और साधु से पूछा, “महाराज आप हमसे तो प्रेम की कहानियां कह रहे हैं, किन्तु आपकी अपनी प्रेमिका कहाँ है ?”

साधु बोला, “मेरी कोई प्रेमिका नहीं है।”

इसपर पशु-पक्षियों तथा जंगली जानवरों के इस भुण्ड में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। अब उसकी कोई नहीं सुनता था। सब अपनी ही हाँके जाते थे। वहां वहुत शेर हो गया।

“यह हमें प्रेम करने का...”

“घर वसाने का उपदेश क्योंकर दे सकता है, जब इसने स्वयं न कभी प्रेम किया है, न घर ही वसाया है ?”

इस घृणा में वे सब उसे अकेला छोड़कर चल दिए, और  
उस रात साधु चटाई पर आँखा पड़ा रोता और अपनी छाती  
पीटता रहा। ६१

# पैगम्बर और वच्चा

एक दिन सारियारसूल एक वाग में एक वच्चे से मिले । वच्चा भागकर उनके पास आ गया और अभिवादन किया ।

पैगम्बर ने अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, “वच्चे, आज मैं देखता हूँ कि तुम अकेले हो ।”

वच्चे ने खुशी से खिलखिलाते हुए कहा, “अपनी धाया को खोने में मुझे एक युग लगा है ! वह समझ रही है कि मैं ज्ञाडियों के इधर हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ ।” फिर उसने पैगम्बर के मुंह की तरफ देखते हुए पूछा, “मगर आप भी तो अकेले हैं । आपकी धाया क्या हुई ?”

पैगम्बर बोले, “यह एक अलग किस्सा है । सच पूछो तो मैं प्रयत्न करूँ तो भी उसे खो नहीं सकता । हाँ, जब मैं इधर आया था, तो वह ज्ञाडियों के उधर मेरी तलाश कर रही थी ।”

वच्चे ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, “तो फिर आप भी मेरे समान खोए हुए हैं ना ? आहा ! क्या मजा है यों खो जाने में भी !” और फिर पूछने लगा, “परन्तु आप कौन हैं ?”

“मुझे कहते हैं, सारियारसूल । और तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम कौन हो ?” पैगम्बर ने पूछा ।

“मैं ! मैं सिर्फ़ मैं हूं” वच्चे ने उत्तर दिया, “और धाया मुझे ढूँढ़ रही है। वह धाया जिसे पता हो नहीं कि मैं कहां हूं ?”

पैगम्बर ने वच्चे के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, “मैं भी पल भर के लिए अपनी धाया से भाग आया हूं, पर वह शीघ्र ही मुझे ढूँढ़ लेगी ।”

“यह तो मुझे भी मालूम है कि मेरी धाया मुझे अन्त में ढूँढ़ ही लेगी ।” वच्चे ने कहा। इसी समय एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, जो उस वच्चे का नाम लेकर उसे पुकार रही थी।

“देखा !” वच्चा बोला, “मैं आपसे कहा नहीं था कि वह मुझे ढूँढ़ रहो है ?”

और उसी समय एक और आवाज सुनाई दी, “कहां हो तुम सारिया !”

पैगम्बर बोले, “देखा न मेरे वच्चे ! आखिर उन्होंने मुझे भी ढूँढ़ ही लिया न ?” और चेहरे को ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, “यहां हूं मैं !”

# आत्मा और शरीर

वसंत के दिन थे । एक पुरुष और एक स्त्री दोनों एक साथ खिड़की के पास बैठे थे । खिड़की वाग में खुलती थी ।

वे दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास बैठे थे । स्त्री बोली, “मुझे तुमसे प्रेम है, क्यों कि तुम जवान हो, धनवान हो और सुन्दर वस्त्र पहने हो ।”

“मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, क्यों कि तुम एक सुन्दर स्वप्न हो, एक ऐसी सूक्ष्म कल्पना हो जो छूई नहीं जा सकती—तुम मेरे मधुर स्वप्नों का रसीला गीत हो ।” पुरुष भावुकता के प्रवाह में कहने लगा ।

स्त्री जलकर अलग हो गई और कहने लगी, “तुम मुझसे दूर ही रहो तो बड़ी कृपा होगो; न तो मैं कोई मरीचिका हूं, और न कोई ऐसी सुकोमल कल्पना हूं जिसका जादू तेरी छोटी-सी छेड़ से टूटफूट जाए या जो तुम्हारे स्वप्नों से सम्बन्धित हो । मैं स्त्री हूं और यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाते और अपने भावी बच्चे की माँ ।”

और वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए । पुरुष अपने मन में कह रहा था, “लो देखो, एक और सुन्दर स्वप्न वस कल्पना बनकर रह गया ।” और स्त्री कह रही थी, “इस पुरुष का क्या है, जो मुझे तथा मेरी इच्छाओं को सिर्फ स्वप्न तथा कल्पना बना देना चाहता है ।”

# राजा

.....

सादिक राज्य के भड़के हुए विद्रोहियों ने राजमहल को धेर रखा था। वे राजा के विरुद्ध नारे लगा रहे थे।

राजा एक हाथ में राजमुकुट और दूसरे हाथ में राजदण्ड लिए महल की सीढ़ियों से उतर आया।

विद्रोहियों की भीड़ में खामोशी ढा गई। राजा जनता के सामने खड़ा था और कह रहा था—

“मेरे मित्रो, जो अब मेरी प्रजा नहीं हो ! लो ! यह लो ! अपना राजमुकुट और राजदण्ड। मैं इन्हें अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं अब तुममें से एक बनूँगा। यद्यपि मैं अकेला हूँ, किन्तु मैं तुम्हारे समाज के एक व्यक्ति के समान तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुमसे पहल करूँगा। हम सब मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारी दशा सुधर सके। अब राज की कोई आवश्यकता नहीं रही है। हम सब एक साथ मिलकर खेतों तथा बागों में परिध्रम करेंगे। तुम मुझे केवल इतना बता दो कि मुझे किस खेत में या किस बाग में काम करना है। अब तुम सब राजा हो।”

प्रजा अपनी इस सहज जीत पर प्रसन्न तो थी, किन्तु एक अजेय स्तव्यता इनपर ढा गई थी। अब वह राजा अपना

राजमुकुट और राजदण्ड उनको साँप चुका था, जिसके विरुद्ध वे विद्रोह कर उठे थे और जिसे वे अपने सब दुःखों का कारण समझते थे ।

वह उनमें से एक बन गया ।

फिर वे सब अपनी-अपनी राह पर हो लिए, और राजा भी किसी एक के साथ किसी एक खेत को चल दिया ।

सादिक राज्य की दशा राजा के बिना भी न सुधर सकी । वेचैनी और भी फैली हुई थी । वाजारों तथा चौराहों में लोग चिल्ला उठे, “हमें राज्य-शासन चाहिए ।”

“हम राजा का राज चाहते हैं ।”

“हम अपने लिए एक राजा चाहते हैं ।” बूढ़े और जवान सब एक साथ मिलकर चिल्लाते थे ।

“हम अपने राजा को वापस लाएंगे ।”

उन्होंने राजा को ढूँडना आरम्भ किया । राजा उन्हें एक खेत में मेहनत करता मिल गया । वे उसे राजमहल में ले आए और राजमुकुट और राजदण्ड उसके चरणों में रख दिया । हाथ जोड़कर सब उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे—

“महाराज, और हमपर राज्य कीजिए पूरी शक्ति के साथ, पूरे न्याय के साथ !”

राजा ने उत्तर दिया, “हम अपनी पूरी शक्ति के साथ राज्य तो करेंगे, मगर हाँ, आकाश-पाताल का स्वामी ऐसा भी करे कि हम न्याय भी कर सकें ।”

फिर प्रजा के स्त्री-पुरुष उसके दरवार में एक बड़े जागीर-दार की शिकायत लेकर आए जो अपने कर्मचारियों पर बहुत

अत्याचार करता था ।

राजा ने उसी क्षण उस वडे जागीरदार को बुलवाया और उसपर टूट पड़ा, “परमात्मा की न्याय-तुला में एक मनुष्य की जान दूसरे मनुष्य की जान के वरावर है । पर तुम इस सत्य को नहीं पहचानते कि जो लोग तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे चागों में, दिन-रात कठोर परिश्रम करते हैं, उनकी जान का भी इतना ही महत्व है, जितना कि तुम्हारी जान का । इसलिए तुम्हें देश-निकाला दिया जाता है । तुम्हें यह देश सदा के लिए छोड़ देना होगा ।”

अगले दिन एक और भीड़ एक ऐसी वेगम की शिकायत दरवार में लेकर आई जो पहाड़ों से उस तरफ रहती थी और जिसके अत्याचारों से वे सब दुखी थे ।

वेगम को भी उसी समय बुलाने की आज्ञा दी गई । राजा ने उसे भी देश-निकाले की सजा देते हुए कहा, “जो हमारे खेतों में हल चलाते हैं और हमारे अंगूरों की रक्षा करते हैं, वे हमसे अच्छे हैं, क्यों कि हम उनका पंदा किया हुआ अन्न खाते हैं और उनकी बनाई हुई मदिरा पीते हैं । किन्तु तुममें यह भाव नहीं है, इसलिए तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा, यहां से कहीं दूर जाकर रहना होगा ।”

फिर कुछ मर्द-औरतें उसके दरवार में रोते-चिल्लते आए, “महाराज, पादरी हमें निरजे के वडे-वडे पत्यर ढोने और तराशने पर विवश तो करता है, पर मजदूरी के पेसे नहीं देता, यद्यपि उसकी तिजोरी जोने और चांदी से भरी हुई है और हमारे पेट भूखे हैं ।”

पादरी के नाम भी परचा जारी हो गया और जब वह दरवार में पेश हुआ, तो बादशाह भल्ला उठा, “जो धर्म-चिह्न-क्रास तुम गले में लटकाए फिरते हो, जानते हो उसका सन्देश है जीवन को जीवन से भरना, परन्तु तुम जीवन को जीवन से बच्चित करते हो : तुम इस पवित्र सन्देश का उपहास करते हो । तुम्हें इस देश से निकल जाने की आज्ञा दी जाती है । तुम्हें कभी यहां लौटकर न आने दिया जाएगा ।”

यूं ही, ठीक इसी प्रकार, पूरा महीना भर प्रतिदिन स्त्री-पुरुष अपने-अपने दुःखों का रोना रोते इसके पास आते रहे और राजा अत्याचारों के बदले में अत्याचारियों को देश से निकालता रहा ।

सादिक राज्य की प्रजा प्रसन्न थी, उनके हृदय शान्त थे ।

एक दिन सादिक राज्य के स्त्री-पुरुष, वृद्ध-युवक अपने राजा के महल के आसपास फिर इकट्ठे हो गए । उन्होंने अपने राजा के महल को घेर लिया ।

राजा एक हाथ में राजमुकुट और दूसरे में राजदण्ड लिए फिर महल की सीढ़ियों से उतर आया और कहने लगा, “अब तुम हमसे बाहर क्या चाहते हो ? लो, हम तुम्हें वह सब कुछ लौटाते हैं, जिसे सम्भालने की तुमने हमसे प्रार्थना की थी ।”

“नहीं, नहीं, महाराज !” वे गिड़गिड़ाने लगे, आप हमारे राजा हैं । आपने हमारे लिए इस भूमि को डैंसनेवाले सांपों और खून चूसनेवाले भेड़ियों से मुक्त कर दिया है । हम तो आपके गुण गाने, आपकी महानता के गीत गाने

आए हैं। यह राजमुकुट अपनी सब बड़ाई के साथ आपका है और यह राजदण्ड भी अपने पूरे सौभाग्य के साथ श्री-मान का ही है।”

महाराज ने कहा, “हम नहीं, तुम सब वादशाह हो। जब तुमने हमें निर्वल पाया और हमारे शासन को त्रुटिपूर्ण, उस समय तुम स्वयं भी निर्वल और त्रुटिपूर्ण थे। अब जनता सुखी है तो यह भी तुम्हारी ही इच्छा है। मैं तो केवल तुम्हारा विचार हूं, तुम्हारे मस्तिष्कों की महान् कल्पना ! और मेरा अस्तित्व तुम्हारे अपने कामों के सिवा कुछ भी नहीं है। शासक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, केवल जनता अपने आपपर शासन करने के लिए जीवित है।”

राजा ने अपने राजमुकुट और राजदण्ड के साथ एक बार फिर महल में प्रवेश किया और सादिक राज्य के बूढ़े और जवान खुशी-खुशी अपने आपको राजा समझते हुए अपने-अपने रास्ते पर हो लिए। वे अनुभव कर रहे थे जैसे सचमुच उनमें से हर एक हाथ में राजमुकुट है और दूसरे में राजदण्ड।

## तीन भेंटे

वसारे शहर में कभी एक बहुत ही दयालु राजकुमार रहता था। सारी प्रजा उसे प्यार करती थी और सब ही उसका हृदय से आदर करते थे।

परन्तु इसी शहर में एक निर्धन दुष्ट आदमी भी रहता था। उसे राजकुमार से बड़ी घृणा थी। और वह सदा उसके विरुद्ध विष उगलता रहता था।

राजकुमार के कानों तक यह सब कुछ पहुंच तो जाता था, पर फिर भी वह चुप रहता।

अन्त में उसने उसका यह उपाय निकाला कि शीतकाल की एक ठंडी रात में अपने एक दास को आटे की एक बोरी, सावुन का गट्ठा और शक्कर की एक बोरी देकर उस दुष्ट के यहां भेजा।

दास ने जाकर उससे कहा, “राजकुमार ने यह सब कुछ श्रीमान की सेवा में भेजा है।”

वह दुष्ट यह सुनकर फूल उठा और यह समझकर इतराया कि राजकुमार ने उसे भेंटे भेजी हैं। इसी घमण्ड में वह पादरी के पास पहुंचा और राजकुमार की भेंटों का व्यौरा बताकर कहने लगा, “देखा न आपने। राजकुमार को भी मेरी प्रसन्नता का कितना स्वाल है !”

पादरी यह सुनकर मुस्कराया, और कहने लगा, “हाँ, मैंने देखा है कि कितना बुद्धिमान है वह राजकुमार और कितने मूर्ख हो तुम। परन्तु कुछ तुम भी समझे कि वह संकेतों में वार्ते करता है? आटे की बोरी तेरे खाली पेट के लिए है, सावन तेरे मैले कपड़ों को उजला करने के लिए और शक्कर तेरी कड़वी वातचीत को भीठा बनाने के लिए है।”

उस दिन से उस दुष्ट को स्वयं अपने आपसे धृणा हो गई। परन्तु राजकुमार के विरुद्ध जो मैल उसके मन में था, उसकी तेजी पहले से भी बढ़ गई। और उस पादरी को तो वह विष की गांठ समझने लगा, जिसने राजकुमार की बड़ाई का रहस्य इसपर प्रकट किया था।

पर कहते हैं, इसके पश्चात् उस दुष्ट ने अपनी जिह्वा से राजकुमार के विरुद्ध कभी कृद्य नहीं कहा।

# शांति और युद्ध

तीन कुत्ते घूप में बैठे गप्प लड़ा रहे थे ।

एक कुत्ते ने ऊंचते हुए, दूसरे कुत्ते से कहा, “आज कुत्तों के संसार में रहना भी क्या विलक्षण बात है ! देखो तो, हम किस आनंद से बिना भिखक हवा में, पानी में और भूमि पर चल-फिर सकते हैं । और जरा इन अविष्कारों पर भी तो विचार करो, जो केवल हमारे आराम के लिए बनाए गए हैं, हमारी नाक, कान और आंख के लिए ।”

दूसरा कुत्ता बोला, “मेरे विचार में हममें सौन्दर्य की अनुभूति बहुत बढ़ गई है । हम चांद पर अपने बाप-दादे से कहीं अच्छे ढंग से भौंकते हैं । और जब अपनी आकृति की परछाई पानी में देखते हैं, तो उसे कल से सुन्दर पाते हैं ।”

तीसरे कुत्ते ने कहा, “परन्तु भाई, जो संतोष और आनन्द मुझे कुत्तों के विचार-साम्य से होता है, वह किसी और वस्तु से नहीं मिलता ।”

जैसे ही उसने यह कहा, तो वया देखते हैं कि कुत्तों का शिकारी चला आ रहा है । वस फिर तो भागे सब कुत्ते दुम दबाकर । जब तीनों कुत्ते बहुत जोर से भाग रहे थे, तीसरे कृत्ते ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा, “अरे भाई, परमात्मा के लिए अपनी जान बचाकर निकल जाओ क्योंकि सभ्यता हमारा पीछा कर रही है ।”

## नर्तकी

एक बार विरक्षा के राजकुमार के दरवार में एक नर्तकी बहुत से गवैयों के साथ उपस्थित हुई। उसने अपना नाच इस अन्दाज से पेश किया कि उसके शरीर की प्रत्येक गति, लचक शहनाई, वरवत तथा छहतारे प्रत्येक वाजे के साथ समलीन हो गई।

उसने चिनारियों का नृत्य किया, तलवारों और घलभों का नाच दिखाया, जमाने और घर का नाच पेश किया और तारों का भी।

आर फिर उसने फूलों का नृत्य भी दिखाया; उसमें ऐसे पुष्प दिखाए, जिन्हें वायु अपनों लपेट में लिए उड़ रही हो।

नृत्य के पश्चात् वह राजकुमार के तन्त के सामने हाय धांधकर खड़ी हो गई और अपना सिर झुका दिया।

राजकुमार ने नर्तकी को अपने पास आने का गोरख प्रदानकर उससे कहा, “ऐ सुन्दरी ! ऐ मत्ती आर लौन्दर्य की मूर्ति ! तूने यह जाहू कहा से सीखा है ? तूने अपने गायन और सजावट से प्रशृति को भी भीह निया ।”

नर्तकी धूटनों पर बैठकर बोली, “हे महान लोभान्यगाली राजकुमार, मुझमें यह बुद्धि कहां कि मैं आपके प्रसन्नों का उत्तर दे सकूँ ? परन्तु मैं इतना श्रवण जानती हूँ कि

यदि एक तत्त्वज्ञानी का प्राण उसके मस्तिष्क में, कवि का प्राण उसके हृदय में, सुवक्ता का प्राण उसके कण्ठ तथा वाणी में रहता है, तो नर्तकी का प्राण उसके शरीर के अंग-प्रत्यंग में वसता है।”

## दो संरक्षक देव

नगर के द्वार पर एक संघ्या को दो देव मिले। कुशल-प्रश्न के पश्चात् एक देव ने दूसरे देव से पूछा, “क्यों भाई, कैसे गुजर रही है? किस काम में लगे हो आजकल?”

“क्या कहूं तुमसे,” दूसरा बोला, “मेरे जिम्मे दूर नीचे तलहटी में वसनेवाले एक ऐसे व्यक्ति की देखभाल का काम है जो अत्यंत पापी और दुराचारी है। और यह काम ऐसा कठिन है कि तुम शायद ही अनुमान कर सको। वह, वही समझो कि दिन-रात जान भार रहा हूं।”

“यह तो सरल-सी बात है,” पहले ने कहा, “मुझे प्रायः पापियों से काम पड़ा है। कई बार बड़े-बड़े पापियों की देखभाल पर रहा हूं। कठिनाई तो अब आ पड़ी है कि मुझे इस साधु पर नियत कर दिया गया है, जो इस वृष्टकुंज में रहता है। और तुम नहीं जानते कि यह काम किस कदर कठिन बाँर सावधानी का है।”

“यह तो तुम्हारा ख्याल ही है,” दूसरा बोला, “मता, एक साधु की देखभाल किसी पापी की देखभाल से कठिन क्योंकर हो सकती है?”

“क्या अशिष्टता है यह”, पहले ने कहा, “मैं तुमसे ठीक-ठीक बात कह रहा हूं और तुम इसे केवल एक विचार दत्तते हो!”

बात तू-नू-मैं-मैं से बढ़कर हाथापाई पर पहुंची और फिर

लगी दोनों तरफ से मुक्कममुक्का होने ।

इधर ये दोनों गृत्यमगृत्या हो रहे थे कि इतने में उनका एक सरदार कहीं से वहां आ निकला ।

उसने दोनों को अलग-अलग करते हुए कहा, “वड़ी लज्जा की वात है कि नगर के द्वार पर दो रक्षक देव यों आपस में लड़ और वह भी विना किसी कारण के ! मैं भी तो जरा सुनूँ कि वह वार क्या है ?”

दोनों एक साथ चिल्ला उठे ।

वे चिल्ला-चिल्लाकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि जो काम एक के जिम्मे है वह दूसरे के काम से कहीं अधिक कठिन है । और इसलिए वह दूसरे से थ्रेष्ठ है ।

यह सुनकर सरदार सोच में पड़ गया । वह बोला, “मेरे साथियो, मैं यह तो निर्णय नहीं कर सकता कि तुममें से प्रशंसा के योग्य कौन है, किन्तु शांति स्थापित करने के लिए मैं तुम्हारे पदों को अवश्य बदल देता हूँ क्यों कि तुम दूसरे के काम को सरल समझते हो । अच्छा, अब खुशी-खुशी अपने-अपने नए काम पर चले जाओ ।”

दोनों देव नई आज्ञाएं सुनकर अपने-अपने रास्ते चल तो दिए, परन्तु मुड़-मुड़कर इस सरदार देव को धूर रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, “वड़े आए सरदार बनकर । जीवन को प्रत्येक दिन पहले से भी अधिक दूभर बनाए जा रहे हैं ।”

किन्तु वह सरदार देव वहीं का वहीं खड़ा था और सोच रहा था कि अब हमें और भी अधिक सावधान रहना पड़ेगा, इन रक्षक देवों की देखभाल के लिए ।

# मूर्ति

दूर पर्वत की तलहटी में एक आदमी रहता था । उसके पास प्राचीन कलाकारों की बनाई हुई एक मूर्ति थी, जो उसके द्वार पर अँधी पड़ी रहती थी । उसे उसका कोई गुण मालूम न था ।

एक दिन एक शहरी इधर आ निकला । वह एक पढ़ा-लिखा विद्यान् था । उसने उस मूर्ति को देखकर उसके मालिक से पूछा, “क्या आप इसे बेचेंगे ?”

यह सुनकर वह हँस दिया और कहने लगा, “इस पत्यर को कोई क्यों मोल लेगा ?”

शहरी बोला, “एक लप्या तो मैं लगाता हूँ ।”

ग्रामीण इस सौदे पर चकित था । परन्तु उसे ददा ? वह तो रूपरे को अपनी गांठ में बांध चुका था । शहरी मृति को हाथी की पीठ पर उठवाकर शहर में ले गया ।

कई महीनों के पश्चात् वह ग्रामीण शहर गदा, तो बाजार में फिरते-फिरते एक जगह भीड़ लगी देखकर वह भी वहाँ रुक गया ।

एक आदमी ऊँची आवाज में पुकारकर वह रहा था, “आओ ! एक अनूठी नवीनतम वस्तु देखो, वह एक अनूल्य मूर्ति है, जिसके जोड़ की मूर्ति दुनिया भर में कहीं न होगी । गिल-

कला के इस अद्वितीय नमूने को देखने के लिए केवल दो रूपए—केवल दो रूपए ।”

ग्रामीण ने भी दो रूपए देकर उस निराली मूर्त्ति को देखने के लिए अन्दर प्रवेश किया, जिसे उसने स्वयं एक रूपए के बदले बेचा था ।

## पागल

.....

पागलखाने के बाग में मैंने एक नवयुवक को देखा, जिसका सुन्दर मुख पीला हो रहा था, जिसपर हैरानी की त्याही चढ़ी हुई थी।

मैं उसके पास बैठ पर जा बैठ और पूछा, “तुम यहां कैसे ?”

उसने चौंककर मेरी तरफ देखा और कहा, “यहां आपका यह प्रश्न यद्यपि व्यथं है, फिर भी उत्तर श्रवण्य दूँगा।” वह कहने लगा—

“मेरे पिता की यह इच्छा थी कि मैं ठोक उसकी प्रतिमूर्ति बनूं और यही इच्छा मेरे चाचा की भी थी। मेरी मां को यह इच्छा थी कि मैं अपने स्वर्गीय नाना के चरण-चिह्नों पर चलूँ। और मेरी वहीन अपने निर्भीक नाविक पति को मेरे लिए सर्वथेष्ठ आदर्श समझती थी। मेरा भाई सोचता पा कि मुझे बाँर कुछ नहीं बरन् उसके ज्ञान एक नामी पहलवान बनना चाहिए।

“और यही हाल मेरे गुरुओं का या—न्याय, संर्गीत और तर्क के अध्यापकों का। जबकी यही इच्छा थी। और वे वदे परिश्रम से इस प्रयत्न में थे कि वे मुझमें अपने गृण इस प्रकार प्रतिविम्बित देखें, जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिविम्ब देखते हैं।

“और मैं यहां इसलिए चला आया कि यहां वहां से अधिक शान्ति है और मैं कम से कम ‘मैं’ तो बन सकता हूँ।”

फिर एकाएक वह मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, “परन्तु आप यहां कैसे पहुँचे? उच्च शिक्षा के कारण या अच्छी संगति की छृपा से?”

मैं भी चक्का-न्सा रह गया और कहने लगा, “नहीं, नहीं, मैं तो केवल भेंट करनेवाला मुलाकाती हूँ।”

“हूँ!” वह बोला, “तो मैं समझा, आप उनमें से हैं, जो इस दीवार के ऊबरवाले पागलखाने में रहते हैं।”

## मेंढक

गरमी के एक प्रातःकाल एक मेंढक ने मेंढकी से कहा, “मेरा विचार है कि जो लोग भील के इधर रहते हैं, हमारे रात के टरनिं से कष्ट तो अवश्य पाते होंगे ?”

मेंढकी बोली, “क्या दिन के समय वे अपनी निर्यंक बातों से हमारे सुख में विघ्न नहीं डालते ?”

मेंढक ने कहा, “कुछ भी हो, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम टरति कुछ अधिक हो हैं ।”

मेंढकी बोली, “और हमें यह भी न भूलना चाहिए कि दिन को वे आवश्यकता से कुछ अधिक ही चिल्लते और शोर मचाते हैं ।”

मेंढक बोला, “पर उस टर्ह का भी कभी तुमने रखा किया, जो रात भर अपने शोर से पड़ोनियों का दम नाल में कर देता है ?”

मढकी ने कहा, “परन्तु क्या तुमने कभी इन नेताओं, रासायनिकों और धर्म-प्रचारकों का भी रखा किया, जो दिन भर अपने शोर, चीख-पुकार से दातावरण को विचारते रहते हैं ?”

मेंढक बोला, “छोड़ो इन्हें । हमें कभी न भूलनी से तो श्रेष्ठ होना चाहिए न । अब हम नाल को चुप रहेगे;

अपने गीत अपने दिल में रखेंगे, चाहे चांद हमारे गायन के लिए और तारे हमारे गीतों के लिए चिल्लाते ही क्यों न रहें।”

उस रात मेंढक चुप रहे, दूसरी रात भी न टर्राए और तीसरी रात भी नहीं।

परन्तु इसपर एक अचरज की वात हुई कि झील के इधरवाले किनारे पर रहनेवाली एक बातूनी स्त्री तीसरे दिन जलपान के समय अपने पति से शिकायत कर रही थी—

“मैं तीन रात से जरा भी नहीं सोई। पहले जब ये मुझे मेंढक टरति थे तो कम से कम नींद तो आ जाती थी। अब जाने तीन रात से इन्हें क्या सांप सूंघ गया है कि बिल्कुल टरति ही नहीं। और अनिन्द्रा से मेरा सिर फटा जाता है।”

मेंढक ने सुना तो मेंढकी की तरफ मुड़कर आंख मटकाते हुए बोला, “इस खामोशी से हम भी तो पागल हुए जाते थे। नहीं क्या?”

मेंढकी बोली, “हाँ क्यों नहीं। रात का यह सन्नाटा हमारे लिए भी तो संकट बना हुआ था। परन्तु तुमने तो देख लिया न कि हमारे लिए चुप रहना आवश्यक है ही नहीं और वह भी उन लोगों की खातिर जो अपने आसपास की निस्तव्धता को शोर से भरा रखना चाहते हैं।”

उस रात इनके गायन के लिए चांद की पुकार और इनके गीतों के लिए तारों की प्रार्थना व्यर्थ न गई।

# कानून और कानून बनानेवाले

वहुत पुराने काल में एक वहुत बूँदा राजा एक वहुत ही बड़े देश पर राज करता था ।

राजा वहुत ही न्यायप्रेमी, बड़ा ही वृद्धिमान् और अत्यन्त दयालु था । वह अपनी प्रजा के लिए अच्छे-अच्छे कानून बनाना चाहता था ।

इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए उस राजा ने एक हजार भिन्न-भिन्न कबीलों से एक हजार वृद्धिमान मनुष्य बुलवाए, जो कि उसकी राजधानी में इकट्ठे होकर कानून बनाएं ।

और वे हजार वृद्धिमान मनुष्य इस काम को पूरा करने के लिए उसकी राजधानी में इकट्ठे हो गए ।

परन्तु जब उन्होंने एक हजार कानून बनाकर राजा के सामने पेश किए और उसने उन्हें पढ़ा, तो उसे वहुत दुःख हुआ । वह अपने दिल में वहुत रोया रखों कि उने यह मालूम न था कि उसके देश में हजार प्रकार के अपराध किए जाते हैं ।

फिर उसने श्रपने लेखक को दूनाया और दड़े शास्त्र-विश्वास के साथ मुत्कराते हुए उसे स्वयं कृष्ण कानून लिखवाए । ये नियम गिनती में केवल सात दे ।

इसपर वे सब कानून बनानेवाले उससे शक्ति ले ले

अपने-अपने कवीलों में इन स्वरचित कानूनों को लेकर बापस चले गए। प्रत्येक कवीला अपने-अपने प्रमुख के बनाए हुए नियमों का पालन करने लगा।

और आजतक इन कवीलों में इसीलिए वे ही एक हजार नियम चालू हैं। यह एक बहुत बड़ा देश है, इसमें एक हजार केंद्राने हैं और इनमें ऐसे स्त्री-पुरुष तथा वच्चे भरे हुए हैं जो हजारों कानून प्रतिदिन तोड़ते हैं। निस्सन्देह यह बहुत बड़ा देश है।

यह बहुत ही बड़ा देश है और इसकी आवादी उन एक हजार कानून बनानेवालों की सन्तान के दम से कायम है, जिनमें केवल एक बुद्धिमान राजा था।

## अभिसारिका

मैंने अपने मित्र से कहा, “तुम उस स्त्री को उसकी भूजा पर झुकी हुई देख रहे हो, कल ठीक इसी तरह यह मेरी भूजा पर झुकी हुई थी ।”

मेरे मित्र ने कहा, “और कल यह मेरी भूजा पर झुकी होगी ।”

मैंने कहा, “जरा देखो तो, किस प्रकार उसकी गोद में पड़ी है । कल इसी तरह मेरी गोद में पड़ी थी ।”

मेरा मित्र बोला, “और ठीक इसी तरह कल यह मेरी गोद में पड़ी होगी ।”

मैंने कहा, “जरा देखो तो, यह उसके प्याले से मुंह लगाए हुए हैं और कल ठीक इसी तरह मेरे प्याले से होंठ चिपकाए हुई थी ।”

उसने कहा, “और कल यह मेरे प्याले से पी रही होगी ।”

मैंने फिर कहा, “देखो तो उसकी तरफ, किस प्रेमभरी दृष्टि से देख रही है । आँखों में अर्पण कर देने का नियंत्रण है । और कल विलक्षण इसी तरह मेरी तरफ देख रही थी ।”

मेरा मित्र बोला, “और कल इसी दृष्टि से मुझे देन रही होगी ।”

मैंने कहा, “वह तुम नहीं देन रहे हो, कि यह उसके

कान में प्रेमभरे गीत गा रही है, ठीक वही गीत जो कल मेरे कानों में गा रही थी ?”

मेरा मित्र बोला, “और कल यह इन्हीं गीतों को मेरे कान में गा रही होगी ।”

मैं चिल्लाया, “पर देखो तो, यह उसका आर्लिंगन कर रही है; और कल बिल्कुल इसी तरह मुझसे लिपटी हुई थी ।”

मेरा मित्र बोला, “और कल यह मुझसे लिपटी होगी ।”

मैं भल्ला उठा, “कौसी स्त्री है यह !”

परन्तु उसने कहा, “वह जीवन के समान है, जिसपर सबका अधिकार है और मृत्यु की तरह वह हर एक को वश में कर लेती है और अनन्त की तरह हर एक को अपनी लयेट में ले लेती है ।”

# दार्शनिक और मोची

एक मोची की दुकान पर एक दार्शनिक आया। दार्शनिक के जूते फटे हुए थे।

दार्शनिक ने मोची से कहा, “कृपा करके मेरे जूतों की मरम्मत कर दीजिए।”

मोची बोला, “क्षमा कीजिए। एक तो मैं यह जोड़ा सी रहा हूँ, दूसरे दो-चार जोड़े मरम्मत के लिए अभी बाँर पड़े हैं। इनके पश्चात् आप के जूतों को वारी आएगी। फिर भी आप अपने जूते यहां छोड़ जाइए। आज के दिन यह जोड़ा पहन लीजिए कल पधारिए और अपने जूते ले जाइए।”

मोची के इस उत्तर पर दार्शनिक तैया में आकर बोला, “मैंने कभी कोई ऐसा जूता नहीं पहना, जो मेरा अपना न हो।”

“आप कहीं दार्शनिक तो नहीं?” मोची ने पूछा। मोची अपने इस प्रदर्शन का उत्तर न पाकर बोला, “तो आप सचमुच दार्शनिक मालूम होते हैं, तभी किसी दूसरे के जूतों से अपने पांव छुआना आपको पसन्द नहीं। हां, तो इसी बाजार में एक और भी मोची बैठता है और वह दार्शनिकों के स्वभाव को मुझसे अधिक अच्छा समझता है। आप मने इन जूतों की मरम्मत के लिए उसीके पास ने जाएँ।”

# पुल बनानेवाले

अन्ताकिया नगर में उस स्थान पर शहर के आधे भाग को दूसरे भाग से मिलाने के लिए एक पुल बनाया गया, जहाँ आसी नदी समुद्र में गिरती है।

पुल भारी-भारी पत्थरों से बनाया गया। इन्हें अन्ताकिया के खच्चरों पर लादकर पहाड़ों से लाया गया था।

जब पुल बनकर तैयार हो गया, तो उसके एक खम्भे पर यूनानी और आरम्भियन भाषा में यह लेख अंकित कर दिया गया—“यह पुल महाराजा अन्ताक्यूस द्वितीय ने बनाया था।”

अब लोग इस सुन्दर पुल से आसी नदी के आरपार आते-जाते थे। एक सन्ध्या को एक पागल-सा नवयुवक इस खम्भे पर चढ़ गया। उसने उस लेख को कोयले से मिटा दिया और उसके स्थान पर यह लिख दिया—

“इस पुल के लिए पत्थर पहाड़ों पर से खच्चर लाए थे। इस पुल को पार करते हुए आप अन्ताकिया के उन खच्चरों को पीठ पर चलते हैं जो कि वास्तव में इस पुल के बनानेवाले हैं।”

और जब लोगों ने इस नवयुवक का लेख पढ़ा, तो कुछ तो केवल हँस दिए और कुछ उसकी सूझपर चकित हुए।

और कुद्द ने सिर्फ इतना कहा, “ओहो, हम जानते हैं कि यह किस पागल का काम है और क्यों, इसके दिमाग के पेच कुद्द ढीले नहीं हैं क्या ?”

परन्तु एक खच्चर ने हँसते हुए इस्तरे खच्चर से कहा, “तुम्हें याद नहीं कि ये पत्थर हमने ढोए थे। परन्तु फिर भी आज तक यही कहा जाता रहा है कि यह पुल महाराजा अन्ताक्यूस ने बनाया था।”

# जाद की रणभूमि

oooooooooooo

जाद की सड़क पर एक पथिक एक देहाती से मिला । देहाती पास ही के एक गांव का रहनेवाला था ।

पथिक ने जाद के खेतों की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, “क्या यही वह मैदान है, जहां बादशाह अलहम ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी ?”

देहाती बोला, “यहां तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई । हां, इन खेतों में कभी जाद का वैभवशाली नगर जरूर बसा हुआ था, जो जलकर राख हो गया; परन्तु अब तो यहां वड़े उप-जाऊ खेत हैं । ये खेत अच्छे नहीं हैं क्या ?”

पथिक आगे बढ़ गया ।

कोई आध मील पर वह एक और आदमी से मिला । जाद के खेतों की ओर संकेत करते हुए पथिक ने उससे पूछा, “तो क्या यह है वह स्थान, जहां कभी जाद का वैभवशाली नगर आवाद था ?”

राही बोला, “यहां कोई शहर तो कभी भी आवाद न था । हां, एक मठ यहां अवश्य होता था, परन्तु बहुत समय हुआ दक्षिणवालों ने उसे नष्ट कर दिया ।”

थोड़ी ही देर के पीछे इसी सड़क पर वही पथिक एक और

आदमी से मिला । और इन चौड़े खेतों को ओर ज़ंकेत करते हुए एक बार फिर उसने पूछा, “क्या यह सच नहीं है कि यहां कभी एक बड़ा मठ था, जिसे दक्षिणवालों ने नष्ट कर दिया था ?”

वह आदमी बोला, “यहां तो कभी भी कोई मठ न था । हां, हमारे वाप-दादा कहा करते थे—यहां बाज से शताव्दियों पहले एक बड़ा दुमदार तारा गिरा था ।”

मन ही मन में विस्मित हुआ वह अधिक अपनी राह चल रहा था ।

अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा मिला, जिसका सफेद सिर उसके भुके हुए कंधों के लिए अधिक बोझल हो रहा था ।

बूढ़े को नमस्कार करते हुए, उसने कहा, “दादा, इसी सड़क पर मैं तीन भिन्न आदमियों से मिला हूं, जो इसी प्रदेश में रहते हैं । इन खेतों के विषय में मैंने अलग-अलग हर एक से पूछा, परन्तु आश्चर्य की बात है कि हर एक आदमी ने एक दूसरे के कथन को भूलाया : हर आदमी ने एक दूसरे से भिन्न कहानी बताई ।”

बूढ़े ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए मुस्कराया, “यह बात नहीं बेटा, हर एक आदमी ने तुम्हें यही कुछ बताया है जो ठीक बात नहीं, परन्तु कठिनाई यह है कि ऐसे विश्वे ही ऐसे आदमी हैं, जो विपरीत बातों में जो तरही बात निकाल सकें ।”

## सुनहरा कमरबन्द

एक बार सलामीज नगर की ओर जाते हुए दो वटोहियों का रास्ते में मेल हो गया। चलते-चलते दोपहर के करीब वे एक ऐसी नदी पर पहुंचे, जिसके चौड़े पाट को पार करने के लिए न कोई नाव थी और न पुल। अब या तो वे नदी को तैरकर पार करें या फिर कोई नया मार्ग ढूँढें। एक ने दूसरे से कहा, “आओ, फिर इसे तैरकर ही पार कर लें। आखिर नदी इतनी चौड़ी भी तो नहीं है।”

दोनों नदी में कूद पड़े।

इन दोनों में से उस आदमी का बीच धारा में ही दम पूल गया, जो नदी की उंचान-निचान से खूब परिचित था। वह तेज बहते हुए पानी के साथ-साथ वहकर दूर ही होता गया।

और दूसरा आदमी जिसने इससे पहले उस नदी को न देखा था और न तैरना ही जानता था, विल्कुल सीधा तैरकर दरिया के दूसरे किनारे जा पहुंचा। परन्तु अब जो उसने अपने साथी को पानी में डुबकी खाते देखा तो उसे पानी में फिर कूदना पड़ा।

वह उसे भी बचाकर किनारे पर ले आया। नदी के तेज

बहते हुए पानी के थपेड़ों ने उसकी दुर्गंति बना दी थी। किनारे पर पहुंचकर वह अपने साथी से बोला, “मिस्र, तुम तो बता रहे थे कि तुमने कभी पानी का मुंह तक नहीं देखा, परन्तु नदी तो इस सरलता से पार की कि मैं भी हँरान हूँ !”

दूसरे ने कहा, “भाई, तुम शायद मेरे इस कमरवन्द को नहीं देख रहे ? इसमें मोहरें भरी हुई हैं और इन्हें मैंने अपनी स्त्री तथा बच्चों के लिए एक-एक करके जोड़ा है। मेरी वर्ष भर की कमाई है यह ! और यह इसी कमरवन्द का बोझ या जो मुझे नदी के पार ले आया; नदी के उस किनारे से इस किनारे पर—मेरी स्त्री और मेरे बच्चों के पास ! जब मैं नदी में तैर रहा था, तब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे कन्धों पर थे।” और फिर वे दोनों एक जाय सलामीज के रास्ते पर हो लिए।

# सन्त भिक्षु

.....

प्राचीन काल में एक सन्त भिक्षु रहता था। वह महीने में तीन बार शहर जाता और चौक में खड़ा होकर लोगों को आपसी मोलजोल तथा दान-त्याग का उपदेश करता था। उसके व्याख्यान में जोर था और वाणी में प्रभाव। दूर-दूर तक उसकी धूम थी।

एक सन्ध्या को तीन आदमी उसकी कुटिया में आए। उसने उनका स्वागत किया। वे बोले, “आप पारस्परिक मेल-जोल तथा दान-त्याग का उपदेश देते हैं। आपने उन लोगों को निर्वनों से प्रेम करने का सन्देश दिया है, जिनके पास आवश्यकता से अविक धन है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि आपकी ख्याति ने आपके चरणों में धन के ढेर लगा दिए हैं। हम जरूरतमन्द हैं, आप हमारी सहायता कीजिए; हमें कुछ दीजिए।”

भिक्षु बोला, “मेरे मित्रो ! मेरे पास इस विस्तर, चटाई और लोटे के सिवा और कुछ भी नहीं। यदि ये आपके किसी काम आ सकें, तो इन्हें ले जाइए, और तो मेरे पास न चांदी है, न सोना।”

इसपर वे कुद्ध होकर चले गए। परन्तु तीसरा आदमी जाते-जाते दरवाजे पर रुक गया और कहने लगा, (“तुम छलिया, मायाचारी और धूर्त हो! तुम दूसरों को ऐसी भलाई का उपदेश क्यों करते हो, जिसपर स्वयं आचरण नहीं कर सकते ?”)

## पुरानी शराब

एक अमोर को अपने ठण्डे तहखाने और अपनी पुरानी शराब पर बड़ा अभिमान था। उसके पास पुरानी शराब का एक बहुत बड़ा घड़ा था, जो किसी विशेष उत्सव के लिए उस तलधर में रखा था, जिसका पता केवल उस घनी को ही था।

नगरपति उसके यहां आया, तो उसने सोचा कि क्या पुरानी शराब का घड़ा में एक साधारण अधिकारी के लिए खोल दूँ? नहीं, कभी नहीं!

गिरजे का बड़ा पादरी उसको भेट के लिए आया, किन्तु उसने फिर भी अपने आपसे यही कहा, "नहीं, वह घड़ा में नहीं खोलूँगा। इस पादरी को पुरानी शराब का गुण क्या मालूम। इसकी तो महक भी इसके नथनों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।"

उस देश का राजकुमार उसके यहां विशेष भोजन पर आया, परन्तु उसने सोचा, "इतनी दानदार शराब और इसे में एक साधारण राजकुमार के प्याले से उड़ेल दूँ! नहीं, नहीं, कभी नहीं!"

यहां तक कि अपने भत्तों के विवाह में भी, जिसमें बड़े-

वडे अमीर और रईस निमन्त्रित थे, उसने अपने आपसे केवल यही कहा, “नहीं, इन अतिथियों के लिए मैं अपनी शराब का पैमाना नहीं खोल सकता ।”

समय यों ही बीत गया और अन्त में बूढ़ा अमीर मर गया। साधारण आदमियों के समान उसे भी दफन कर दिया गया। जिस दिन उसे दफन किया गया, शराब का वह पुराना घड़ा दूसरे मटकों के साथ बाहर लाया गया। उन्हें आसपास के ग्रामीणों ने आपस में बांट लिया, पर किसीको इस पुरानी शराब के किसी विशेष गुण का पता तक भी न चला। उनके लिए जो कुछ भी मधुपान्न में डाला गया, वह शराब थी; शराब—क्या घटिया, क्या बढ़िया !

# दो गीत

शताव्दियां हुईं; एथेन्स की सड़क पर दो कवि एक दूसरे से मिले। आपस में मिलकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

एक ने दूसरे से पूछा, “आपने इन दिनों क्या लिखा है?”

दूसरे कवि ने बड़े घमण्ड से कहा, “मैंने अभी-अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता पूरी की है—शायद यूनानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कविता। यह इष्टदेव जपोइस की प्रशंसा में है।”

उसने यह कहते हुए अपने चमड़े के थंडे से एक पाण्डुलिपि निकाली और कहा, “देखो, यह रही मेरी वह कविता। तुम चाहो तो तुम्हें पढ़कर सुनाने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। आओ, सफेदे के इस वृक्ष के तले बैठ जाएं।”

कवि ने अपनी कविता पढ़नो आरम्भ बी। यह एक वहृत ही लम्बी कविता थी।

“बड़ी अच्छी चीज है,” पहले कवि ने बड़ी उदारता के साथ प्रशंसा की, “यह कविता वहृत समय तक जीवित रहेगी और इससे आपका बड़ा नाम होगा।”

अब दूसरे कवि ने पूछा, “परन्तु तुमने इतने दिनों में क्या लिखा है?”

“वहृत ही कम लिखा है मैंने,” पहले कवि ने उत्तर

दिया, “वाग में खेलते हुए एक वच्चे की याद में केवल आठ छन्द ।”

और इस कवि ने अपने वे आठ छन्द पढ़कर उसे सुना दिए ।

“कुछ ऐसे बुरे नहीं हैं ।” दूसरे कवि ने बड़े घमण्ड से अपनी सम्मति देते हुए कहा ।

और आज दो सहस्र वर्ष गुजरने पर भी इस कवि के वे आठ छन्द गाए जाते हैं ।

और यद्यपि वह दूसरी कविता ‘जपोइस महान् की प्रशासा’ शताव्दियों से प्राचीन पुस्तकों में सुरक्षित है, किन्तु न उसे कोई पढ़ता है और न ही कोई पसन्द करता है ।

# श्रीमती रुही

तीन आदमी दूर खड़े उस सफेद मकान की ओर देख रहे थे, जो सामने पहाड़ की चोटी पर खड़ा था।

इनमें से एक ने कहा, “यह श्रीमती रुही का घर है, उस बूढ़ी चुड़ैल का !”

“अरे, तुम क्या जानो,” दूसरा बोला, “श्रीमती रुही तो गजब की सुन्दर स्त्री है, जो दिन-रात अपने स्वप्नों के जादू में खोई रहती है।”

“तुम दोनों गलत कहते हो,” तीसरे ने कहा, “श्रीमती रुही तो इन चौड़े खेतों की मालिक है और अत्याचारी जमीन्दारों की तरह अपने किसानों का खून चूसती है।”

वे श्रीमती रुही के सम्बन्ध में बातें करते बढ़ते चले गए। जब चौराहे पर पहुंचे, तो इन्हें एक बूढ़ा मिला। इनमें से एक ने पूछा, “वया आप श्रीमती रुही के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो पहाड़ीबाले सफेद घर में रहती है ?”

“रहती है !” बूढ़े ने मुस्कराते हुए अपना सिर उठाया, और कहा, “मैं नब्बे वर्ष का हो गया हूँ भाई, और श्रीमती रुही के बारे में उस समय से जानता हूँ, जब मैं कभी छोटा बच्चा था। श्रीमती रुही को मरे अन्त्ती वर्ष बीत चुके हैं और वह घर तब से खाली पड़ा है। हां, परन्तु कभी-कभी वहां उल्लू बोलते जहर मुनाई देते हैं, और लोग वह स्वाल करते हैं कि वहीं भूतों का बसेरा है।”

## चूहा और विल्ली

सायंकाल एक कवि की एक गांववाले से भेट हुई। कवि अपरिचित था और ग्रामीण शर्मिला, किन्तु फिर भी वे देर तक खड़े आपस में बातें करते रहे।

गांववाला बोला, “मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिसे मैंने अभी हाल में ही सुना है : एक चूहा पिजरे में फंस गया, पर उसमें कैद होकर भी वह भीतर पड़ा पनीर खाता रहा। बाहर एक विल्ली आ खड़ी हुई। चूहा पहले तो डरा, पर फिर उसे ख्याल आया कि वह तो पिजरे में कैद है, और विल्ली के पंजों की पहुंच से बाहर।

“यह देखकर विल्ली बोली, मेरे मित्र, जानते भी हो कि तुम अपना अन्तिम खाना खा रहे हो !

“हाँ, चूहे ने उत्तर दिया, मेरा जीवन एक है, इसलिए मौत भी एक ही होगी। परन्तु तुम्हारा क्या हाल है मौसी विल्ली ? सुनते हैं नौ जीवन हैं तुम्हारे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें नींवार मरना भी पड़ेगा !”

ग्रामीण ने कवि की तरफ देखते हुए कहा, “कितनी रोचक है यह कहानी ! क्यों नहीं है क्या ?”

कवि ने इसका कुछ उत्तर न दिया, और अपने मन में

यह कहता हुआ चल दिया, “निस्सन्देह हमारे भी नौ जीवन हैं, निश्चय ही नौ ! और नौ बार ही हमें मरना पड़ेगा । नौ बार ! अच्छा होता कि हमारा भी एक ही जीवन होता-पिजरे में वन्द एक चूहे का-सा जीवन ! और खाने के लिए पनीर के टुकड़े के साथ रोटी ! परन्तु क्या हम जंगल और सहारा में रहनेवाले शेर के भाई-वन्द नहीं हैं ?”

# अभिशाप

.....

तीस वर्ष हुए, एक बूढ़े मांझी ने कहा, “एक नवयुवक मांझी मेरी पुत्री को भगाकर ले गया। उसे अपने दिल ही दिल में मैंने अभिशाप दिया था क्योंकि मेरी बेटी मृझे दुनिया की हर वस्तु से अधिक प्यारी थी और दुनिया की हर वस्तु से अधिक मैं उसे चाहता था।

“थोड़े ही दिनों के पश्चात् समाचार मिला कि वह नवयुवक मांझी अपनी नाव समेत समुद्र में डूब गया है और उसके साथ ही मेरी बच्ची भी डूब गई है। मेरी बेटी मृझे छिन गई ! अब तुम मेरे इस अभागे शरीर में एक का नहीं दो का खून देख रहे हो—एक निर्भीक मांझी का और दूसरे एक निर्दोष लड़की का। यह मेरा अभिशाप था, जिसने उनका सर्वनाश कर दिया।

“और अब मैं कन्न में पांव लटकाए परमात्मा से दया तथा क्षमा की प्रार्थना करता रहता हूँ।”

बूढ़े मांझी ने आंसूभरी आंखों से यह कहा तो सही पर उसकी वातचीत में खेद की अपेक्षा अपनी ढींग का रंग अधिक था; जैसे उसे अपने अभिशाप के प्रभाव पर बड़ा घमण्ड था।

## अनार

.....

एक आदमी के पास अनार का एक बहुत बड़ा बांधा था। मुहूर्त से उसका यह व्यवहार था कि फसल के दिनों में चांदी के थालों में अनार भरकर घर के बाहर रख देता और चांदी के इन थालों पर अपने हाथ से यह लिखकर लगा देता, "जितने में चाहो, एक अनार उठा लो, आपको आज्ञा है।"

परन्तु लोग पास से चले जाते और कोई इस तरफ ध्यान भी न देता।

अन्त में बहुत सोच-विचारकर उस आदमी ने एक उपाय निकाला और इस वर्ष फसल के समय चांदी के थालों में पके हुए लाल अनार रखने के स्थान पर एक तखता ऊंचा पत्थर के लटका दिया। इसपर लिखा था, "हमारे यहां दढ़िया अनार है और इनका मोल भी देख भर के दूसरे अनारों के दृढ़त बढ़कर है।"

इसको देखकर दूर-दूर से स्त्री-पुरुष उनी इन अनारों को मोल लेने आने लगे।

# परमात्मा और देवता

कैलाफश नगर में एक कुत्कंवादी मन्दिर की सीढ़ियों में खड़ा वहुदेवतावाद का प्रचार कर रहा था। वहाँ आए लोग अपने मन में कहते थे, “हम यह सब कुछ जानते हैं। क्या ये सब देवता हमारे साथ नहीं रहते और जहाँ कहीं भी हम जाएं हमारा पीछा नहीं करते ?”

थोड़ी ही देर पश्चात् एक और आदमी चौक में खड़ा लोगों से कह रहा था, “कोई परमात्मा नहीं है !” जिसने भी इसे सुना, प्रसन्न हुआ कि उन्हें परमात्माओं से जो डर लगता था, वह दूर हुआ।

फिर किसी और दिन एक और आदमी आया। इसकी बाणी में तेज और व्याख्यान-शैली में आकर्षण था। इसने कहा, “लोगो ! परमात्मा केवल एक है !” सुननेवालों के दिल बुझ गए क्योंकि मन में वे बहुत से परमात्माओं के न्याय की अपेक्षा एक परमात्मा के न्याय से अधिक भय खाते थे।

इसी वर्ष एक और धर्म-प्रचारक आया और इसने लोगों से कहा, “वास्तव में परमात्मा तीन हैं, और वे तीनों वाह्यरूप से एक बनकर रहते हैं। इनकी एक बहुत ही कृपालु मां हैं।”

इसपर कैलाफश के लोग बहुत प्रसन्न हुए। वे दिल ही

दिल में कहने लगे, “एक परमात्मा, एक में तीन ! निस्सन्देह हमारे दोषों और दुर्वलताओं के विषय में कभी भी वे एकमत नहीं हो सकते । और फिर इनकी कृपालु मां; वह हम दुर्वल हृदयवालों के दोषों की उपेक्षा अवश्य करेगी !”

आज के दिन तक कैलाफ़क्षा नगर में सहलों ऐसे लोग हैं, जो परमात्मा के होने या न होने के बारे में सगड़ते हैं, और एक परमात्मा, तीन परमात्माओं और इनकी मां की सत्ता पर बाद-विवाद करते रहते हैं ।

# वह, जो बहरी थी

एक नवयुवक व्यापारी था। वह बहुत ही धनी और रूपवान था। उसकी धर्मपत्नी भी नवयुवती तथा सुन्दर थी, पर दुर्भाग्य से वहरी थी—विल्कुल ही वहरी !

एक दिन प्रातः पति-पत्नी जलपान के लिए बैठे थे। स्त्री ने अपने पति से कहा, “कल मैं बाजार गई, तो देखा कि दुकानों पर दमिश्की रेशम, हिन्दी चोगे, ईरानी हार और यमनी मोती हैं। मालूम होता था कि कोई जीहरी बच्चा, अभी-अभी अपने काफले के साथ हमारे नगर में आया है। और इधर मुझे देखो कि इतने बड़े आदमी की स्त्री होकर भी चिथड़े लपेटे फिरती हूँ; मैं तो अब इनमें से अपने काम की कुछ वस्तुएं जरूर मोल लूँगी !”

“प्यारी, कोई कारण नहीं कि तुम बाजार न जाओ,” पति ने कहवे का घंट पीते हुए कहा, “और अपनी जरूरत और पसन्द की वस्तुएं न मोल लो ?”

वहरी पत्नी चिल्लाई, “ना-ना तो हर समय तुम्हारी जवान पर है ! परन्तु इतना तो सोचो कि तुम्हारी स्त्री इन चिथड़ों में फिरेगी तो क्या तुम्हारे नाम और तुम्हारे घन को बढ़ा न लगेगा ?”

वह बोला, “पर प्यारी, मैंने ना कब को है ? तुम जब चाहो, बाजार जाओ और अपने लिए वड़िया से वड़िया रेशम, सुन्दर से सुन्दर हार, और अच्छे से अच्छे मोती ले आओ।”

परन्तु वहरी पत्नी ने इसका भी उल्टा ही मतलब निकाला, “नगर के सब धनवानों में से एक तुम ही अत्यन्त कन्धूस हो,” उसने रोते हुए कहा, “तुम मुझे हर सुन्दर वस्तु से केवल इसलिए चंचित रखते हो कि वह मंहगी है, यद्यपि मुझसे वड़ी-वड़ी आयू को स्त्रियां वड़िया से वड़िया रेशम और अच्छे से अच्छे मोती पहने फिरती हैं !”

रोते-रोते उसको हिचकी बंध गई; द्वेष मोती-से आंखू उसके उभरी हुई छाती पर टप-टप गिर रहे थे ।

वह चिल्ला रही थी, “मेरी इच्छाओं पर वज्र तुम ‘ना,’ ‘ना’ हो सुनाओगे । मेरे लिए तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं रहता !”

नीजवान व्यापारी को अपनी पत्नी की विवरता पर तरस आ गया । वह उठा, अपनी थैली से मुट्ठी भर मुहरें निकालकर उसके सामने डाल दीं । और वड़े प्रेम से बोला, “जाओ प्रिये, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो, ले आओ ।”

उस दिन के पश्चात् उस नववृत्ती नुन्दरी को जब भी किसी वस्तु की लावश्यकता होती, तो अपनी आँखों में आंख लिए वह अपने पति के पास आ जाती और वह नृपताप मुट्ठी भर मुहरें निकालकर उसके सामने डाल देता ।

ऐसा हुआ कि उस नुन्दरी को जिसी दूसरे नीजवान से प्रेम हो गया जो दम्भी-दम्भी यात्राओं का नीरिन था ।

अब यह नौजवान जब कभी भी कहीं बाहर जाता, तो यह सुन्दरी प्रातः-सांझ खिड़की में खड़ी-खड़ी रोती रहती ।

इधर जब भी इसका पति इसे यूं अपने गाल आंसुओं से भिगोते देखता, तो अपने मन में कहता, “नगर में जरूर कोई नया काफला नए-नए रेशमी चोगे, मूल्यवान हार और दुष्प्राप्य मोती लेकर आया है ।”

वह मुट्ठी भर मुहरें निकालता और इसके सामने डाल देता ।

# खोज

.....

शताब्दियां हुईं; लेवनान की घाटियों में दो दार्शनिक आ मिले।

एक ने दूसरे से पूछा, “कहां जा रहे हैं आप ?”

दूसरा बोला, अमें जवानी के सरोवर की खोज में जा रहा हूँ। और वह मेरे विचार में यहीं कहीं इन पहाड़ियों में से फूटता है। मैंने इसके बारे में प्राचीन पुस्तकों में भी देखा है कि वह सूरज की तरफ फल को तरह खिलता है।”

पहले दार्शनिक ने उत्तर दिया, “पर, मैं तो मृत्यु के रहस्य की खोज में हूँ।”

दोनों दार्शनिक अपने-अपने मन में यह समझ रहे थे कि दूसरा इस रहस्य से सर्वया अनभिज्ञ है और इस ज्ञान से कोरा, जो उसे स्वयं प्राप्त है। एक दूसरे पर अपना बड़प्पन जताने के लिए वे झगड़ने लगे।

वे एक दूसरे के आध्यात्मिक महत्व, दृष्टि तथा ज्ञान को झूठला रहे थे।

झगड़ा बढ़ते-बढ़ते हायापाई की नींवत आ गई। उसी समय कहीं से एक ऐसा देहाती वहां आ निकला जिसे उसके गांववाले सीधासादा और मूर्ख समझते थे।

उसने जब उन दो पढ़े-लिखे विद्वानों को लड़ते-झगड़ते देखा तो उनकी बातें सुनने के लिए वहां रुक गया ।

कुछ देर दूर खड़े उनकी बातें सुनते रहने के पश्चात्, वह उनके पास आ गया और उन्हें सम्बोधन करके बोला, “मेरे मित्रो! मालूम होता है, आप दोनों तत्त्वज्ञान के एक ही दृष्टिकोण पर सहमत हैं और दोनों को एक ही वस्तु की खोज है ।

“यद्यपि आप दोनों ने इसे अलग-अलग नाम दे रखे हैं ।

“आपमें से एक को जवानी के सरोवर की तलाश है और दूसरे को मृत्यु के रहस्य की—वास्तव में ये दोनों एक ही हैं और आप दोनों के अन्तर में मौजूद हैं । अच्छा मैं चलता हूं ।”

देहाती यह कहकर विदा हो गया । वह इनसे कुछ दूर पहुंचने पर अपने मन में मुस्करा रहा था ।

दोनों दार्शनिक क्षण भर तो चुपचाप खड़े एक दूसरे को तकते रहे फिर एकाएक वे भो खिलखिलाकर हँस पड़े ।

उनमें से एक ने दूसरे से कहा, “तो क्यों न अब हम एक साथ खोज आरम्भ कर दें ?”

## राजदण्ड

• • • • •

राजा ने रानी से कहा, “रानी ! तुम सचमुच की रानी नहीं हो । मेरी धर्मपत्नी वनने के योग्य भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम अत्यन्त फूहड़ और कमसमझ हो !”

रानी बोली, “श्रीमान् भी तो अपने आपमें वहुत बड़े राजा बने फिरते हैं, परन्तु वास्तव में हैं निरे बुद्ध ही !”

राजा यह सुनकर क्रोध में आ गया ।

उसने अपना राजदण्ड उठाया और अपने पूरे जोर से उसे रानी के माथे पर दे मारा ।

सुनहरा राजदण्ड रानी के खून से लथपथ हो गया ।

इसी समय एक बड़ा अधिकारी अन्दर आया और सिर झुकाकर बोला, “महाराज, यह राजदण्ड देश के सबसे बड़े कलाकार का बनाया हुआ है । मुझे खेद है कि एक न एक दिन दुनिया श्रीमान् को और रानी को भूल जाएगी । परन्तु यह राजदण्ड जो कला का एक अद्वितीय नमूना है, आनेवाली पीढ़ियों में शताव्दियों तक सुरक्षित रहेगा ।

“और महाराज ने इस सुनहरी राजदण्ड से महारानी के सिर से खून निकाला है, तो यह राजदण्ड अब और भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्मारकों में गिना जाएगा ।”

# रास्ता

.....

पर्वत की तलहटी में एक माँ और उसका इकलौता और पहला बच्चा एक साथ रहते थे।

चिकित्सक अभी सिरहाने ही खड़ा था कि बच्चा ज्वर से मर गया।

शोक से माँ का संसार अंधेरा हो गया। ममता पुकार-पुकारकर चिकित्सक से पूछ रही थी, “मुझे बताओ ! किस अत्याचारी ने इस बरावर चलनेवाली छाती की बड़कन को रोक दिया !

“किसने इस मीठी बाणी को शान्त कर दिया !”

चिकित्सक बोला, “यह ज्वर था।”

माँ ने पूछा, “यह ज्वर क्या बला है ?”

चिकित्सक उलझन में पड़ गया, “मैं ठीक तरह से तो बता नहीं सकता, पर होता है यह साधारण-सी तुच्छ वस्तु; किन्तु शरीर के भीतर प्रवेश करके जहर फैला देता है। पर कठिनाई यह है कि हम इसे देख नहीं सकते। मनुष्य की आंख इसे देख नहीं सकती।”

चिकित्सक चला गया। माँ रोती रही और उसके शब्द दुहराती रही, “पर होता है यह साधारण-सी तुच्छ वस्तु; पर हम इसे देख नहीं सकते। मनुष्य की आंख इसे देख नहीं सकती।”

दिन ढले पादरी संवेदना प्रकट करने आया। ममता

अभी तक चिल्ला रही थी । मां के आंसू थमते ही न थे । वह पादरी से पूछ रही थी, “कोई मुझे बताओ! मेरा एक ही बच्चा मुझसे क्यों छिन गया ?”

“मेरा इकलौता लाल !”

“मेरा पहला बच्चा !”

पादरी बोला, “मेरी बच्ची, यह परमात्मा की इच्छा थी ।”

मां बोली, “तो फिर परमात्मा क्या है ? वह कहां है ?

“मैं परमात्मा को देखना चाहती हूँ ! जिससे उसके सामने अपनी छाती खोलकर रख दूँ और अपने हृदय का खून उसके चरणों में निचोड़ दूँ । मुझे बताओ कि परमात्मा कहां है ?”

पादरी बोला, “वेटी, परमात्मा बहुत बड़ा है, पर मनुष्य की आंख उसे देख नहीं सकती ।”

ममता फिर चिल्लाई, “एक बहुत ही तुच्छ वस्तु ने एक बहुत ही बड़े की इच्छा से मेरे लाल की जान निकाल ली ! तो फिर हम क्या हैं ?

“हम कौन हैं ?”

बच्चे को नानी बालक का कफन-कपड़ा लिए भीतर आ रही थी । उसने पादरी के शब्द भी सुने थे और अपनी बेटी का विलाप भी । उसने कफन नीचे रख दिया और फिर अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर बोली, (“मेरी बेटी, हम ही बहुत तुच्छ हैं और हम ही बहुत बड़े हैं और हम ही हैं इन दो छोटों के बीच एक अटल मध्यम रास्ता ।”)

## ह्वेल और तितली

एक सन्ध्या को एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों, एक साथ डाकगाड़ी में जा रहे थे ।

पहले भी दोनों एक दूसरे से मल चुके थे ।

दोनों में पुरानी जान-पहचान थी ।

पुरुष कवि था । स्त्री के पास बैठे-बैठे उसने सोचा कि वह किस्से-कहानी सुना-सुनाकर इसका मनोरंजन करे । कुछ उसकी अपनी रचनाएं थीं और कुछ दूसरों की ।

कवि गल्पों के रंगीन जाल बुन रहा था, पर वह स्त्री सो रही थी ।

गाड़ी के अकस्मात् भट्टके से वह जाग उठी, तो बोली, “जोना और ह्वेल की जो उपमा तुमने वर्णन की है, वह मुझ अत्यन्त पसन्द है ।”

कवि बौखलाया, “श्रीमती ! परन्तु, मैं तो आपसे अपनी लिखी हुई एक गल्प सुना रहा था, जो तितली और चम्पे की कोमल कली के सम्बन्ध में, इनके आपसी मेल-जोल और प्रेम के विषय में थी ।”

## स्थायी शान्ति

.....

वृक्ष की एक फलीफूली टहनी ने दूसरी से कहा, “आज का दिन बहुत ही उजड़ा-उजड़ा और उदास-सा है ।”

दूसरी टहनी बोली, “निस्सन्देह, दिन बहुत उदास और उजड़ा-उजड़ा-सा है ।”

इसी क्षण एक चिड़ी एक टहनी पर आ बैठा और फिर एक दूसरी चिड़िया भी ।

चिड़े ने चूंचूं करके कहा, “मेरी चिड़िया मुझे छोड़ गई है ।”

चिड़िया बोली, “मेरा साथी भो मुझे छोड़ गया है और अब वह लौटकर न आएगा । परन्तु मुझे इससे क्या ?”

दोनों चूंचूं करने लगे और फिर एक दूसरे के पर नोचने लगे । अब वे लड़ रहे थे और शोर मचा रहे थे ।

एकाएक दो चिड़ियां उड़ती हुई आकाश से नीचे उतरीं और इन दो धैर्यहीन चिड़ियों के पास चुपचाप बैठ गईं । अब वहां खामोशी थी ।

अब वहां शान्ति थी ।

फिर वे चारों चिड़ियां उड़ गईं ।

पहली टहनी साथवाली से कहने लगी, “इसे तुम जो

चाहो, कहो, मैं तो इसे शान्तिपालक और आनन्ददायक समझती हूँ। यदि ऊपर के वातावरण में शान्ति है तो नीचे भी शान्ति है। क्या तुम वायु में लहराकर मेरे पास नहीं आ सकतीं ?”

पहली टहनी बोली, “क्यों नहीं; शान्ति के लिए वसन्त के दिन वीतने से पहले। फिर वह वायु के तेज़ झोके के साथ लहराकर इसे अपनी छाती से लिपटाते इसके समीप आ पहुँची।)

## सत्तर

.....

नौजवान कवि ने महारानी से कहा, “मुझे तुमसे प्रेम है।”

महारानी ने उत्तर दिया, “मेरे बच्चे, मुझे भी तुमसे प्रेम है।”

कवि ने कहा, “परन्तु मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। मैं मर्द हूँ। मैं जवान हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।”

महारानी बोली, “और मैं लड़कों और लड़कियों की मां हूँ। और वे बच्चों के बाप हैं और बच्चियों की माएं हैं। और मेरे एक बेटे का वेटा तो आयु में तुमसे भी बड़ा है।”

नौजवान कवि ने दुहराया, “परन्तु मुझे तुमसे प्रेम है।”

इसके कुछ दिन फ्रचात् महारानी का स्वर्गवास हो गया, परन्तु अपने अन्तिम श्वास को इस पृथ्वी के बड़े श्वास में खोकर गुम हो जाने से पहले ही वह अपने दिल ही दिल में कह रही थी, “मेरे लाल, मेरे प्रेमी, मेरे नौजवान कवि, हो सकता है कि हम फिर कभी मिलें और तब मेरों आयु सत्तर वर्ष की न हो।”

## सत्य की खोज

दो आदमी एक साथ घाटी में धूम-फिर रहे थे । उनमें से एक ने पहाड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, “वह सामने मठ देख रहे हो ? उसमें एक साधु रहता है, जिसने बहुत समय से संसार का त्याग कर रखा है । उसे केवल परमात्मा की खोज है और संसार की किसी वस्तु से उसे कोई राग नहीं ।”

दूसरा आदमी बोला ( “जब तक वह इस मठ और इस मठ के एकान्त को छोड़कर संसार में नहीं लौटता, सुख-दुःख में हमारा साथी नहीं बनता, खुशी के अवसरों पर नाचनेवालों के साथ मिलकर नाचने और मृत्यु के अवसरों पर रोनेवालों के साथ आंसू बहाने के लिए हममें नहीं आता, उसे परमात्मा नहीं मिल सकता । ” )

पहला आदमी यद्यपि हृदय से इस बात को स्वीकार कर चुका था, फिर भी कहने लगा, “तुमने जो कुछ भी कहा, मैं उससे सहमत हूं, किन्तु फिर भी यह मेरा विश्वास है कि साधु बहुत अच्छा आदमी है । और क्या यह अच्छा नहीं है कि एक भला आदमी सहस्रों ऐसे लोगों से दूर ही रहे जो अपने आपको भला समझते हैं ? ”

# नदी

००००

कादसिया की तलहटी में, जहां एक बड़ी नदी वहती थी, वो छोटे-छोटे नाले आपस में मिलने पर यूं बातचीत करने लगे—

पहला नाला बोला, “कहो भई, तुम्हारा रास्ता कैसे कटा?”

दूसरे ने कहा, “भाई, मेरा रास्ता तो बहुत ही खराब था। पनचक्की का पहिया टूटा हुआ था और वह चक्की-बाला बूँढ़ा मर चुका था जो मेरा रास्ता काटकर मुझे अपने खेतों में ले जाया करता था। मैं हाय-पांव मारता, उन आदमियों के कीचड़ से अपने आपको बचाता हुआ चला आ रहा हूं, जो धूप में वैठे मक्खियां मारते रहते हैं। पर भाई, तुम्हारी राह कैसे कटी?!”

पहला नाला बोला, “मेरा मार्ग सर्वथा भिन्न था। मैं पर्वतों पर से चिकनी, शर्मिली बेलों और सुगन्धित पुष्पों से खेलता चला आ रहा हूं। चांदी की कटोरियां भर-भरकर स्त्री-पुरुष मेरा पानी पीते थे और छोटे-छोटे बच्चे अपने गुलाबी पांव मेरे किनारे घंघालते थे। मेरी चारों ओर हँसी और सुरीले गीत थे। परन्तु खेद है कि तुम्हारा नाला सुखपूर्ण न था।”

“चलो, जल्दी चलो !” नदी चिल्लाई, “चलो, चुप-  
चाप बढ़े चलो, मुझमें समा जाओ ! हम समूद्र की तरफ जा  
रहे हैं। आओ, मेरी गोद में पहुंचकर तुम अपने सब क्लेश  
भूल जाएंगे। खुशी और रंज की सब कहानियां स्वयमेव  
आपस में लय हो जाएंगी।”

“आओ, हम अपने मार्ग के सब क्लेश भूल जाएंगे।  
समूद्र में अपनी माँ की गोद में पहुंचकर हम सब कुछ  
भूल जाएंगे।”

# हर्ष और शोक

.....

मई महीने के एक चमकीले प्रभात में हर्ष शोक से मिला । एक ने दूसरे की कुशल-क्षेम पूछी और फिर वे झील के स्थिर पानी के समीप बैठकर बातें करने लगे ।

हर्ष दुनिया की सुन्दरताओं तथा उन आश्चर्यजनक वस्तुओं का जिक्र करता था, जिनसे जीवन बन में, पर्वतों पर और हरियालियों में दो-चार होता है और उन रसीले मधुर गीतों का जो दिन छढ़े और दिन ढले सुनाई देते हैं ।

शोक ने हर्ष से जो कुछ सुना उसका समर्थन किया । वह अस्तित्व के जादू को भाँप चुका था और उसके सौन्दर्य को भी ।

और जब शोक ने पर्वतों और हरियालियों की वहार का जिक्र किया तो उसके बर्णन में बहुत प्रवाह था और चाणी में अत्यन्त आकर्षण ।

बहुत देर तक शोक और हर्ष यूँ ही एक साथ बैठे-बैठे बातें करते रहे ।

एक जो कुछ कहता, दूसरा उससे पूरा-पूरा सहमत होता था । इसी समय झील के उधर दूसरे किनारे दो शिकारी जा रहे थे । जैसे ही उन्होंने इबर देखा तो एक बोला, “न जाने वे कौन हैं ?”

दूसरा कहने लगा, “क्या कहा तुमने, दो ? मुझे तो केवल एक दिखाई दे रहा है !”

पहले शिकारी ने कहा, “नहीं भई, दो हैं !”

दूसरा बोला, “मुझे तो केवल एक दिखाई दे रहा है । और जील में परछाई भी तो केवल एक ही की दिखाई दे रही है ।”

पहला कहता था, “नहीं, दो हैं ! और पानी में परछाई भी दो ही की स्पष्ट दिखाई दे रही है ।”

दूसरे का अब भी वही स्वाल था, “मैं तो केवल एक ही को देख रहा हूँ ।”

और पहला इस बात पर आग्रह कर रहा था कि वे तो स्पष्ट रूप से दो दिखाई दे रहे हैं ।

(आज तक एक शिकारी को यह शिकायत है कि उसके मित्र को एक के दो दिखाई देते हैं और दूसरा समझता है कि उसके साथी की दृष्टि अवश्य कुछ कमजोर हो गई है ।)

## दूसरा आवारा

मैं एक बार एक नाविक से मिला । वह भी कुछ मजनू-  
सा ही था । वह मुझसे यूँ कहने लगा—

“मैं तो एक आवारा हूँ और प्रायः मुझे ऐसा अनुभव  
होता है जैसे कि मैं इस भूमि पर मनुष्यों में नहीं बरन् वीनों  
में चल-फिर रहा हूँ । मेरा सिर इनकी अपेक्षा चूंकि सत्तर  
गज अधिक ऊँचा है, इसलिए इसमें इतने ही अधिक उच्च  
तथा इतने ही अधिक गहरे विचार पैदा होते हैं ।

“आरे जो तुम सच पूछो, तो मैं मनुष्यों में नहीं बरन्  
मनुष्यों पर चलता हूँ और वे अपने खुले तथा चाँड़े खेतों में  
मेरे चरण-चिह्नों के सिवा और कुछ भी नहीं देख सकते ।

“आरे प्रायः मैंने इन्हें अपने चरण-चिह्नों की असाधारण  
माप पर विवाद करते तथा झगड़ते सुना है, क्योंकि अधिकतम का  
यही विचार है कि यह किसी ऐसे देव के पांव के नियान हैं  
जिसका आज से शतादिद्यों पहले कहीं इवर से दास्ता था ।

“आरे कुछ कहते हैं, नहीं, इन गढ़ों में दूर चमकने-  
वाले तारों में से दुमदार तारे टूटकर गिरते रहे हैं ।

“परन्तु ऐ मित्र! केवल एक तुम ही जानते हो कि ये  
सिवा एक आवारा के चरण-चिह्नों के आरे कुछ भी  
नहीं हैं ।”

## रेत पर

एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, “वहुत समय हुआ, पूरे ज्वार के दिनों में मैंने अपनी लाठी की नोक से समुद्र के किनारे रेत पर कुछ लिखा था। लोग इसे पढ़ने के लिए अब भी यम जाते हैं। उन्हें यह चिन्ता रहती है कि कोई इसे मिटा न दे।”

दूसरा बोला, “भई, मैंने भी रेत पर कुछ लिखा तो था, किन्तु वह पूरे भाटे के उत्तार का समय था और अथाह समुद्र की बेरोक लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गईं। हाँ, पर बताओ तो तुमने क्या लिखा था?”

पहले ने उत्तर दिया, “मैंने लिखा था, (मैं वह हूं, जो है) और तुमने क्या लिखा था?”

दूसरा बोला, “मैंने यह लिखा था, (मैं तो इस अथाह समुद्र का एक बूँद मात्र हूं ।)

## आंसू और हँसी

नील नदी के किनारे सन्ध्या के बुन्धलके में एक लकड़वग्धा एक घड़ियाल से मिला। एक ने दूसरे को ठहरा लिया। अभिवादन के बाद लकड़वग्धे ने घड़ियाल से पूछा, “कहिए सरकार, कैसे गुजर रही है?”

घड़ियाल बोला, “व्या पूछते हो भाई ! बुरी हालत है। यदि कभी दर्द के मारे आंखों में आंसू आ जाएं, तो देखनेवाले हँसी के मारे लोटपोट होकर कहते हैं कि यह घड़ियाली आंसू हैं। सच मानो, तो यह करट असहनीय होता है।”

इसपर लकड़वग्धे ने कहा, “अरे भाई ! तुम तो अपने ज़ी दुख का रोना रोते हो। यहां जरा मेरी दशा भी तो देखो ! मैं संसार की मुन्द्रताओं को देखता हूँ, उसके चमत्कारों और उसकी अद्भुत वातों को सुनता हूँ, तो मारे प्रसन्नता के बांधे खिल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उपा मुक्तराती है; तो ये दुनियावाले मेरी इस आनन्दपूर्ण हँसी पर भी हँसते हैं और कहने लगते हैं कि अरे, यह तो लकड़वग्धे की हँसी है !”

## विजली चमकती है

एक सन्ध्या को जोर की आंधी चल रही थी। एक पादरी अपने गिरजाघर में था। अन्य वर्माविलम्बी एक स्त्री वहाँ आई और उसके सामने खड़ी होकर बोली, “हे पूज्य पादरी ! मैं इसाई नहीं हूँ, किन्तु क्या मेरे लिए भी नर्क की आग से बचाव का कोई उपाय है ?”

पादरी ने उसकी ओर बढ़प्पन से देखा और कहा, “नहीं। निर्वाण केवल उनके लिए है, जिनकी आत्माएं परम पवित्र परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित कर चुकी हैं।” जिस समय वह यह कह रहा था, भयंकर गर्जन के साथ आकाश से विजली गिरी और गिरजे को भयंकर चिंगारियों में लपेट लिया।

शहर से लोग भागे आए। उन्होंने उस स्त्री को तो बचा लिया किन्तु पादरी जलकर राख हो चुका था।

## अदला-चदली

एक बार किसी चौराहे पर एक निर्वन कवि एक धनवान मूर्ख से मिला ।

वे देर तक खड़े एक दूसरे से बातें करते रहे । उनकी इस बातचीत से अपने जीवन के प्रति असन्तोष प्रकट होता था ।

उसी समय स्वर्ग का एक देव इधर से गुजर रहा था । उसने दोनों को अपने परों की छाया के नीचे ले लिया । यह चमत्कार ही तो था कि दोनों के गुण-दोष परस्पर में बदल गए और उन्हें इसका पता तक भी न चला । और फिर वे एक दूसरे से अलग हो गए ।

किन्तु आश्चर्य की बात है कि कवि फिर भी वह नमज रहा था कि अब उसके पल्ले सूखी रेत के सिवा कुछ नहीं रहा और मूर्ख आंखें बन्द करने पर भी केवल यही अनुभव करता था कि उसके हृदय पर बादल चल नहे हैं ।

## मोती

एक सीप ने दूसरी सोप से कहा, “मेरे पेट के भीतर दर्द है, वड़े जोर का दर्द ! वोभिल और गोल-सा । मैं बहुत ही कष्ट में हूँ ।”

दूसरी सीप ने वड़े घमण्ड से कहा, “परमात्मा को धन्यवाद है । मैं तो भीतर-वाहर से ठीकठाक हूँ ।

उसी समय एक केकड़ा, जो पास से जा रहा था और जिसने उन दोनों की वातें भी सुनी थीं, बोला, “हाँ, तुम भीतर-वाहर से ठीकठाक हो, किन्तु जो दर्द तुम्हारे पड़ोसी के है, वह एक अनमोल मोती का दर्द है ।”

## पूरा चांद

पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक-दमक के साथ निकला। नगर के सब कुत्तों ने चांद पर भाँकना आरम्भ कर दिया।

केवल एक कुत्ता चुप रहा। इसने बड़ी गम्भीरता से दूसरे कुत्तों से कहा, “शान्ति को उसकी नींद से न जगाओ और चांद को अपने शोर से भूमि पर न बुलाओ।”

दूसरे कुत्तों ने भाँकना बन्द कर दिया। डरावनी खामोशी आ गई। परन्तु वही उपदेशक कुत्ता सारी रात शान्ति का उपदेश देता हुआ भाँकता रहा।

## प्रेम और धृणा

एक स्त्री ने पुरुष से कहा, “मुझे तुमसे प्रेम है ।”

पुरुष बोला, “यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य बन जाऊं ।”

फिर स्त्री ने पुरुष से कहा, “तो क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है ?”

पुरुष ने केवल उसकी तरफ देखा और मौन रहा ।

इसपर स्त्री ने चिल्लाना आरम्भ कर दिया, “मुझे तुमसे धृणा है, मैं तुमसे धृणा करती हूँ ।”

और पुरुष ने कहा, “तो फिर मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं तुम्हारी धृणा के योग्य बन जाऊं ।”

## परद्याई

जून के महीने का एक प्रभात था। घास अपने पड़ोसी  
वलूत वृक्ष की परद्याई से बोली, “तुम दाएं-बाएं भूल-भूल-  
कर हमारे सुख को नष्ट करती हो।”

परद्याई बोली, “अरे भाई, मैं नहीं, मैं नहीं ! जरा  
आकाश की ओर देखो तो। एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो वायु  
के झोंकों के साथ पूर्व और पश्चिम की ओर सूर्य और भूमि के  
बीच भूलता रहता है।”

घास ने ऊपर देखा तो पहली बार उसने वह वृक्ष देखा।  
उसने अपने दिल में कहा, “घास ! यह मुझसे भी नन्हीं  
और ऊंची-ऊंची घास ही तो है।”

और घास चुप हो गई।

## सपना

.....

एक आदमी ने एक सपना देखा । जब उसकी आँख खुली तो अपने सपने का फल पूछने के लिए वह अपने ज्योतिषी के पास गया ।

ज्योतिषी ने उससे कहा, “मेरे पास तुम जब ऐसे सपने का फल पूछने आओगे, जिसे तुमने जागते में देखा हो, तो उसका फल मैं तुम्हें बता सकूंगा परन्तु नींद के सपनों का न तो मेरे ज्ञान से कोई सम्बन्ध है, और न तुम्हारी कल्पना से ।”

## लाल धरती

.....

एक वृक्ष ने एक आदमी से कहा, “मेरी जड़ें दूर नाच लाल धरती में हैं । मैं तुम्हें अपना फल दूंगा ।”

आदमी बोला, “कैसी समानता है हममें । मेरी जड़ें भी दूर लाल धरती में ही हैं । और यह भूमि तुम्हें शक्ति प्रदान करती है कि तुम हमपर अपने फल न्योछावर करो और हमें सिखाती है कि हम कृतज्ञतापूर्वक उन्हें स्वीकार करें ।”



# गांधी अध्ययन केन्द्र

स्थिति	तिरिथ

